



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28—अगस्त 3, 2007 (श्रावण 6, 1929)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28—AUGUST 3, 2007 (SRAVANA 6, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400 001, दिनांक 5 जुलाई 2007

संदर्भ. सं. शर्बैवि.बीएसडी. एनएसबी. II/एन. 3/12.21.353/2007-2008--जैसा कि, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि कुबेर को-ऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद ने बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया है तथा उसने स्वयं को एक को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाए हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) (इसमें इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 22 के अंतर्गत कुबेर को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए स्वीकृत किया गया 5 जनवरी 1999 का लाइसेंस हमारे दिनांक 23 मई 2007 के आदेश शर्बैवि. सं. केंका. बीएसडी. एनएसबी. II/एलसी. 112/12.21.353/2006-07 द्वारा निरस्त कर दिया है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की धारा 36 क (2) के उपबंधों के अंतर्गत एतद्वारा अधिसूचित करता है कि कुबेर को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात राज्य उक्त अधिनियम के अर्थ में अब सहकारी बैंक नहीं रहा है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे सहकारी बैंक पर लागू उक्त अधिनियम के सभी उपबंध इस अधिसूचना से पहले के कृत्यों या अकृत्यों को छोड़कर उस पर लागू नहीं होंगे।

वी. एस. दास
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2007

संख्या : यू.16/53/2002 चि.2 (गुजरात) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ.जी.जी. करना	1.8.2007 से 31.7.2008तक	जमालपुर
		डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

संख्या: एन-15/13/11/2/2007-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 जुलाई, 2007** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1955** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे. अर्थात् :-

“नगर पालिका, रोपड़ की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

बार कौंसिल ऑफ इन्डिया

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 19 जून 2007

भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल ऑफ इंडिया) द्वारा निम्नलिखित संकल्प द्वारा अपने नियमों के भाग 6, अध्याय 2 में नियम 40 और 41 का संशोधन किया गया है।

क्रम सं०	संशोधित नियम
1.	<p align="center">नियम को संशोधित करने संबंधी संकल्प</p> <p>संकल्प सं० 66/2001 (भारतीय विधिज्ञ परिषद् की बैठक, तारीख 22 जून, 2001)</p> <p>यह संकल्प अपनाया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6, अध्याय 2 के नियम 40 के अधीन अधिवक्ता कल्याण फीस, अभिदाय को एक बारगी संदाय के रूप में 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए तथा वार्षिक संदाय को 30 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाए।</p> <p>यह और संकल्प अपनाया जाता है कि यह तारीख 1 अगस्त, 2001 से प्रवर्तन में आएगा। यह संकल्प राज्य विधिज्ञ परिषदों के, जिन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परिपत्र सं० एस.टी.बी.सी. (परि.) सं० 17/2000, तारीख 1 जुलाई, 2000 का उत्तर दिया था, बहुमत के आधार पर पारित किया गया है।</p> <p>यह और संकल्प अपनाया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 6, अध्याय 2, अनुभाग 4 क में नियम 40 का निम्नानुसार संशोधन किया जाए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियम के प्रथम पैरा में विद्यमान “90” अंकों के स्थान पर “300” अंक प्रतिस्थापित किए जाएं। 2. परन्तुक में विद्यमान “90” अंकों के स्थान पर “300” अंक प्रतिस्थापित किए जाएं। 3. परन्तुक में विद्यमान “300” अंकों के स्थान पर “600” अंक प्रतिस्थापित किए जाएं। 4. नियम और स्पष्टीकरण में जहाँ कहीं भी “1 अप्रैल, 1993” या “1-4-1994” अंक और शब्द आते हैं, उनके स्थान पर “1 अगस्त, 2001” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। 5. नियम के परन्तुक में “ तथापि, संबंधित अधिवक्ता द्वारा समेकित संदाय के पूर्व किया गया संदाय इसके अतिरिक्त होगा और उस संदाय के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, किन्तु उन अधिवक्ताओं से, जिन्होंने समेकित संदाय के रूप में केवल 200/-रु० की समेकित रकम का संदाय किया है, 100 रुपए का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ” शब्दों का लोप

संशोधित नियम निम्नानुसार होगा -

“प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावलि में है, राज्य विधिज्ञ परिषद् को तारीख 1 अगस्त, 2001 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष 300/- रुपये की राशि का संदाय करेगा और उसके साथ इन नियमों के अंत में दिए गए प्रारूप के अनुसार विशिष्टियों का विवरण देगा। प्रथम संदाय तारीख 1 अगस्त, 2001 को या उससे पूर्व अथवा ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा या संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिसूचित किया जाए, किया जाएगा :

परन्तु यह और कि तथापि अधिवक्ता प्रति तीन वर्षों में 300/- रुपये का संदाय करने के स्थान पर 600/- रुपये की समेकित राशि का संदाय करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह आजीवन संदाय होगा जो कि संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी और ब्याज की राशि का इस नियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 : नियम 40 के अधीन यथा अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण नियत प्रारूप में केवल तीन वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण 2 : ऐसे सभी अधिवक्ताओं को, जो वस्तुतः विधि व्यवसाय में हैं और कोई वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं अथवा पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं और अपने संबद्ध नियोजकों से वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, केवल इस नियम में निर्दिष्ट राशि का संदाय करना होगा।

स्पष्टीकरण 3 : यह नियम 1-8-2001 से प्रभावी होगा और इसको पूर्व की अवधि के लिए अधिवक्ताओं के लिए पुराना नियम ही लागू बना रहेगा।

2.

संकल्प सं. 92/2001
(भारतीय विधिज्ञ परिषद् की तारीख 24, 25 और 26 अगस्त, 2001 की बैठक)

यह संकल्प अपनाया जाता है कि नियम के भाग 6, अध्याय 2 में नियम 40 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :

आजीवन संदाय में से अस्सी प्रतिशत राशि राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा सावधि जमा में रखी जाएगी और शेष बीस प्रतिशत राशि भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अंतरित की जानी होगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषद् उस राशि को सावधि जमा में रखेंगी और उक्त जमा राशियों पर की केवल ब्याज राशि को ही अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

3.

संकल्प सं. 93/2001
(भारतीय विधिज्ञ परिषद् की तारीख 24, 25 और 26 अगस्त, 2001 की बैठक)

यह संकल्प अपनाया जाता है कि “परिषद्” द्वारा तथा “सावधि” शब्दों के बीच निम्नलिखित जोड़ा जाए :
“और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के बीच नियम 41 के अधीन यथा परिकल्पित 80 : 20 के अनुपात में”

यह और संकल्प अपनाया जाता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा संगृहीत अधिवक्ता कल्याण निधि का प्रशासन “भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ता कल्याण निधि” के नाम से किया जाना चाहिए और नियम 41(1) में “निधि” तथा “और” के बीच आने वाले “राज्य के लिए” शब्दों का लोप किया जाए।

यथा संशोधित नियम इस प्रकार है -

“प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावलि में है, राज्य विधिज्ञ परिषद् को तारीख 1 अगस्त, 2001 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष 300/- रुपये की राशि का संदाय करेगा और उसके साथ इन नियमों के अंत में दिए गए प्रारूप के अनुसार विशिष्टियों का विवरण देगा। प्रथम संदाय तारीख 1 अगस्त, 2001 को या उससे पूर्व अथवा ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा या संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिसूचित किया जाए, किया जाएगा :

परन्तु यह और कि तथापि अधिवक्ता प्रति तीन वर्षों में 300/- रुपये का संदाय करने के स्थान पर 600/- रुपये की समेकित राशि का संदाय करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह आजीवन संदाय होगा जो कि संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा 80 : 20 के अनुपात में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी और ब्याज की राशि का इस नियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा।

ख. नियम 41(1) “राज्य के लिए” शब्द हटाने के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

नियम 40 के अनुसार राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा इस प्रकार संग्रहीत सभी राशि “भारतीय अधिवक्ता परिषद् कल्याण निधि” नामक पृथक् निधि के नामे की जाएगी और यहाँ नीचे यथाउपबंधित बैंक में जमा की जाएगी।

4. संकल्प सं0 130/2006

(भारतीय अधिवक्ता परिषद् बैठक तारीख 15 और 16 सितम्बर, 2006)

संकल्प किया गया कि भारतीय अधिवक्ता परिषद् नियम के भाग 6 अध्याय 2, नियम 40 के अधीन अधिवक्ता कल्याण निधि फीस अभिदाय 600/-रु० से बढ़ाकर 1000/-रु० किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया गया कि यह 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होगा

स्पष्टीकरण सं0 1

उपवर्णित प्ररूप में नियम 40 द्वारा यथापेक्षित व्यौरों के कथन को 3 वर्ष में केवल एक बार प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

स्पष्टीकरण सं0 2

ऐसे अधिवक्ता, जो वास्तविक रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वेतन नहीं ले रहे हैं या पूर्ण कालिक सेवा में नहीं हैं और अपने संबद्ध नियोजक से वेतन आहरित नहीं कर रहे हैं, से ही इस नियम के अनुसार रकम संदत्त करने की अपेक्षा है।

स्पष्टीकरण सं0 3

यह नियम 01.10.2006 से प्रभावी होगा और इसके पूर्व अवधि के संबंध में अधिवक्ता पुराने नियम के अधीन बने रहेंगे।

भारतीय अधिवक्ता परिषद् ने तारीख 5 और 6 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना और निम्नलिखित संकल्प पारित किया :

5. संकल्प सं0 62/3007

संकल्प किया गया कि श्री जी गोपाकुमारन नायर, सदस्य भारतीय अधिवक्ता परिषद् को सर्वसम्मति से 16.04.2006 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय अधिवक्ता परिषद् का अध्यक्ष चुना जाता है।

संकल्प सं0 63/2007

संकल्प किया गया कि श्री जय राम बेनीवाल, सदस्य, भारतीय अधिवक्ता परिषद् को सर्वसम्मति से 16.04.2008 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय अधिवक्ता परिषद् का उपाध्यक्ष चुना जाता है।

एस. राधाकृष्णन
सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

मुंबई-400 051, दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. जीएसआर--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 48 (5) के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का 31 मार्च 2007 का तुलनपत्र, 31 मार्च 2007 (अप्रैल 2006--मार्च 2007) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित है।

आर. कृष्णमूर्ति

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

शार्प एण्ड टैनन

सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) की 31 मार्च 2007 के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें उन 14 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 प्रशिक्षण केन्द्र के विवरण भी शामिल हैं जिनकी हमने लेखा-परीक्षा की है। इन कार्यालयों / प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन हमने बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 1/4/2004 -बीओए, दिनांक 9 मार्च 2007 के अनुसार किया है। तुलन पत्र एवं लाभ-हानि लेखों में उन 14 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 उप कार्यालय तथा 2 प्रशिक्षण केन्द्रों के विवरण भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। लेखा परीक्षा न किए गए कार्यालयों का अप्रिमों में 11.55%, जमाराशियों में 3.48%, ब्याज आय में 12.45% और ब्याज व्यय में 3.34% हिस्सा है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की अपेक्षा रहती है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की जांच, परीक्षण के आधार पर करना लेखा परीक्षा में, सम्मिलित होता है। प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है।

अपर पैरा 1 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने वे सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त कीं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थीं और वे संतोषजनक पायी गयीं;
- ख. बैंक के जिन लेन-देनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमारी राय में, वे सभी बैंक की शक्तियों के अंतर्गत थे।
- ग. बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त विवरणों को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त पाया गया है;
- घ. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है;
- ङ. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत की गयी व्याख्याओं तथा बैंक की लेखा बहियों के अनुसार :
 - (i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, सभी आवश्यक विवरणों से युक्त पूर्ण और स्पष्ट तुलनपत्र है तथा उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2007 को बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके; और
 - (ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा, भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
 - (iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप से दर्शाता है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 मई 2007

शार्प एण्ड टैनन

सनदी लेखाकार

द्वारा हस्ताक्षर

मिलिंद पो. फडके

साक्षेदार

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलन पत्र - 31 मार्च 2007 की स्थिति

(रुपए)

क्रम सं.	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2007 को	31.03.2006 को
1.	पूंजी (नाबाई अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	7802,41,16,398	6974,47,24,916
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2	13214,00,00,000	13183,00,00,000
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	2	1533,00,00,000	1522,00,00,000
5.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	3	182,63,92,591	187,12,23,936
6.	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	4	711,81,48,778	145,70,11,072
7.	अन्य निधियां	5	1112,28,92,249	860,22,46,840
8.	जमाराशियां	6	20236,85,79,506	14051,71,86,003
9.	बांड और डिबेंचर	7	28891,89,75,750	20812,95,91,000
10.	उधार	8	3171,69,84,829	6192,19,88,010
11.	चालू देयताएं और प्रावधान	9	2363,69,38,167	1675,83,02,643
	जोड़		81220,30,28,268	67605,22,74,420
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (सुरक्षा)कन्ट्रा के अनुसार		371,65,47,961	315,91,70,276
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	18		
क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2007 को	31.03.2006 को
1.	रोकड़ और बैंक शेष	10	7010,70,12,884	4295,81,39,683
2.	निवेश	11	2380,63,59,752	3276,15,93,655
3.	अग्रिम	12	69507,89,75,674	58087,93,96,722
4.	अचल आस्तियां	13	238,68,73,841	225,20,30,665
5.	अन्य आस्तियां	14	2082,38,06,117	1720,11,13,695
	जोड़		81220,30,28,268	67605,22,74,420
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (सुरक्षा)कन्ट्रा के अनुसार		371,65,47,961	315,91,70,276
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	18		
पी सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग मुंबई, 28 मई 2007			हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैन्न सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता : मिलिंद पी. फडके साझेदार सदस्यता सं. 33013 मुंबई, 28 मई 2007	
डॉ. य.शं. पा. थोरात अध्यक्ष	डॉ. के.जी. करमाकर प्रबंध निदेशक	उषा थोरात निदेशक	अमिताभ वर्मा निदेशक	

आर कृष्णमूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2006-07 में	2005-06 में
1.	ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		4176,56,91,825	3413,59,20,826
2.	निवेश परिचालनों से आय		539,24,04,117	470,24,51,942
3.	डिस्कअन्ट एवं कमीशन		18,57,92,392	1,30,83,014
4.	अन्य प्राप्तियां		13,98,93,546	51,32,80,007
	जोड़ 'अ'		4747,37,81,880	3936,47,35,789

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2006-07 में	2005-06 में
1.	ब्याज और वित्तीय प्रभार	15	2893,37,23,050	2196,35,68,985
2.	स्थापना और अन्य व्यय	16	590,52,68,082	394,35,82,259
3.	मूल्यह्रास			
	(अनुसूची 18 का बी-14 एवं बी-17 देखें)		22,66,32,925	22,30,95,662
4.	प्रावधान :			
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन		18,18,15,952	18,18,15,952
	(ख) मानक आस्तियां		86,15,00,000	70,70,00,000
	(ग) अनर्जक आस्तियां		3,06,72,109	-52,72,628
	(घ) राबैं सामान्य सूचनाओं हेतु प्रावधान		-17,31,052	42,98,129
	(ङ) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में मूल्यह्रास		-31,27,81,991	31,27,81,991
	(च) निवेश खाता की मालियत में मूल्यह्रास - इक्विटी		20,18,000	81,66,000
	(छ) ब्याज घटक का उत्सर्ग - पुनर्संरचना खाते		-5,57,00,000	31,08,00,000
	(ज) अन्य आस्तियों / प्राप्ति के लिए प्रावधान		28,30,546	0
	जोड़ 'आ'		3577,42,47,621	2764,98,36,350
5.	आयकर पूर्व लाभ (अ - आ)		1169,95,34,259	1171,48,99,439
6.	(क) आयकर हेतु प्रावधान		349,00,00,000	325,00,00,000
	(ख) आस्थगित कर - आस्ति (समायोजन)		-38,17,00,000	-13,97,00,000
	(ग) अनुलाभ कर के लिए प्रावधान		2,70,00,000	3,20,00,000
7.	आयकर के बाद लाभ		856,42,34,259	857,25,99,439

लाभ और हानि विनियोजन खाता

(रुपए)

क्रम सं.	विनियोजन / आहरण	31.03.2007 को	31.3.2006 को
1	वर्ष का लाभ आगे लाया गया	856,42,34,259	857,25,99,439
	जोड़ें : लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय के समक्ष निधियों के आहरण		
i	सहकारी विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	2,96,13,765	6,06,79,935
ii	अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	8,88,91,192	6,01,45,321
iii	वॉटरशेड विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	5,15,54,239	3,77,98,262
iv	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (अनुसूची 5 देखें)	6,36,02,984	4,49,26,381
v	निवेश में घट-बढ़ प्रारंभित निधि (अनुसूची 1 देखें)	49,21,20,000	141,34,55,000
vi	कृषि नवोन्मेष एवं संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	36,08,782	0
		929,36,25,221	1018,96,04,338
2	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		
	घटाएं : निम्नलिखित में अंतरित किया गया :		
i	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारंभित निधियां	410,00,00,000	450,00,00,000
ii	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	30,00,00,000	30,00,00,000
iii	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थायीकरण) निधि	10,00,00,000	10,00,00,000
iv	सहकारी विकास निधि	2,96,13,765	6,06,79,935
v	अनुसंधान और विकास निधि	8,88,91,192	6,01,45,321
vi	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,62,29,603	13,62,29,603
vii	प्रारंभित निधि	453,88,90,661	503,25,49,479
	जोड़	929,36,25,221	1018,96,04,338

महत्वपूर्ण लेखकों नीतियों तथा लेखों के भाग के रूप में टिप्पणी हेतु अनुसूची 18 देखें.

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
 शर्प एंड टैनन सनदी लेखाकार
 हस्ताक्षरकर्ता :

पी सतीश
 मुख्य महाप्रबंधक
 वित्त और लेखा विभाग
 मुंबई, 28 मई 2007

मिनिंद्र पी. फडके
 साझेदार
 सदस्यता सं. 33013
 मुंबई 28 मई 2007

डॉ. य.शं. पा. धोरात
 अध्यक्ष

डॉ. के.जी. करमाकर
 प्रबंध निदेशक

ऊषा धोरात
 निदेशक

अमिताभ वर्मा
 निदेशक

आर कृष्णमूर्ति
 मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

तुलन पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची 1 - प्रारंभित निधि और अन्य प्रारंभित निधियां

क्रम सं.	विवरण	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में वृद्धि / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2007 को शेष
1	प्रारंभित निधि	3859,80,22,375	0	453,88,90,661	0	4313,69,13,036
2	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	0	8,88,91,192	8,88,91,192	50,00,00,000
3	प्रारंभित पूंजी	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4	निवेश में घट-बढ़ प्रारंभित निधि	96,42,75,000	0	0	49,21,20,000	47,21,55,000
5	सहकारिता विकास निधि	75,00,00,000	0	2,96,13,765	2,96,13,765	75,00,00,000
6	मार्जिन राशि हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	133,43,74,333	0	13,82,29,603	0	147,06,03,936
9	आपकर अधिनियम 1961 की धारा 36(ii) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारंभित निधि	2665,00,00,000	0	410,00,00,000	0	3075,00,00,000
10	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	5,00,00,000	0	0	36,08,782	4,63,91,218
	जोड़	6974,47,24,916	0	889,36,25,221	61,42,33,739	7802,41,16,398
	गत वर्ष	6148,94,00,834	0	978,96,04,338	153,42,80,256	6974,47,24,916

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2006 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2007 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	13183,00,00,000	1,00,00,000	30,00,00,000	13214,00,00,000
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1522,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1533,00,00,000
	जोड़	14705,00,00,000	2,00,00,000	40,00,00,000	14747,00,00,000
	गत वर्ष	14663,00,00,000	2,00,00,000	40,00,00,000	14705,00,00,000

अनुसूची 3 - अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियां

क्रम सं.	विवरण	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त / समायोजित अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय / संवितरण / समायोजन	31.03.2007 को शेष
1	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	47,75,64,774	5,51,07,826	0	0	53,26,72,600
2	ग्रामीण नवोन्मेष निधि (अनुसूची 16 नोट बी-7 देखें)	133,33,03,452	0	7,08,81,235	15,19,49,544	125,22,35,143
3	ग्रामीण संवर्धन निधि	78,96,472	2,47,84,234	0	0	3,26,80,706
4	वॉटरशेड विकास हेतु क्लेफ्टडब्ल्यू निधि (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	4,71,29,224	0	15,43,605	4,71,29,224	15,43,605
5	अदिवासी कार्यक्रम हेतु क्लेफ्टडब्ल्यू - नाबार्ड V निधि	53,30,014	5,32,20,757	0	5,12,90,234	72,60,537
	जोड़	187,12,23,936	13,31,12,817	7,24,24,840	25,03,69,002	182,63,92,591
	गत वर्ष	191,00,38,418	156,65,13,238	7,85,43,304	168,38,71,024	187,12,23,936

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

क्रम सं.	विवरण	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2007 को शेष
अ.						
1	कैफ़ेडब्यू - नाबार्ड - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	89,93,059	9,31,91,341	1,85,057	9,78,01,594	45,67,863
2	कैफ़ेडब्यू - नाबार्ड - इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III - महाराष्ट्र (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	2,12,479	4,23,32,686	11,53,835	31,86,497	4,05,12,503
3	आईजीडब्यूपी विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	49,217	82,55,880	1,337	49,64,753	33,41,681
4	आईजीडब्यूपी विकास कार्यक्रम - गुजरात (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	0	36,90,877	1,06,478	13,82,628	24,14,727
5	नाबार्ड एसडीसी मानव और संस्थागत विकास परियोजना के तहत अचल संपत्ति हेतु नाबार्ड अनुदान	14,87,766	0	0	6,57,520	8,30,246
आ.						
1	श्रीत गृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश अनुदान	5,04,26,210	74,47,38,400	0	57,21,78,550	22,29,86,060
2	लघु उद्योगों में तकनीकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी अनुदान	1,20,68,667	82,82,000	0	2,01,12,794	2,37,873
3	ग्रामीण गोदामों हेतु पूंजी निवेश अनुदान	42,09,87,501	59,30,11,482	0	67,51,47,352	33,88,51,631
4	फसल उत्पादन के लिए ऑन फार्म जल प्रबंध	4,77,35,506	0	0	3,97,05,590	80,29,916
5	मिलियन उड़ते नलकूप कार्यक्रम	40,17,48,979	100,00,00,000	0	-55,38,73,213	195,56,22,192
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	1,90,04,412	0	9,27,823	1,03,95,000	95,37,235
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	2,08,70,349	0	10,15,413	1,15,50,000	1,03,35,762
8	जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	7,24,16,040	1,00,00,000	0	1,98,29,393	6,25,86,647
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आरएसवीवाई	9,92,82,326	0	0	40,35,238	9,52,47,088
10	सीआईएस - योजना बागवानी विकास - बिहार	11,35,07,208	0	0	-32,02,289	11,67,09,497
11	वर्षा जल संग्रहण योजना	0	6,95,81,100	0	3,53,36,730	3,42,44,370
12	ऋच्छ - सूखा रोकथाम परियोजना	2,75,11,331	22,043	0	1,22,76,801	1,52,56,573
13	हेरी और पोल्सी वेंचर पूंजी निधि	7,96,172	16,00,00,000	0	12,52,81,280	3,55,14,892
14	कृषि विपणन आधारभूत सुविधा, प्रेंटिंग और मानकीकरण हेतु पूंजी अनुदान	15,99,13,850	25,00,00,000	0	26,65,04,790	14,34,09,060
15	विदर्भ पैकेज	0	125,00,00,000	0	125,00,00,000	0
16	लाइवलीहुड एडवॉन्समेंट बिजनेस स्कूल - सुल्तानपुर, उ.प्र. (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	0	1,23,00,000	4,23,150	61,50,000	65,73,150
17	लाइवलीहुड एडवॉन्समेंट बिजनेस स्कूल - राय बरेली, उ.प्र. (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	0	1,20,00,000	2,21,974	0	1,22,21,974
18	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उ.प्र. (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	3,93,24,000	16,97,996	67,71,662	3,42,50,334	0
19	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ - राय बरेली, उ.प्र. (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	0	3,93,22,000	7,17,452	1,91,25,000	2,09,14,452
20	पूँजी अनुदान योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केन्द्र	0	3,00,00,000	0	3,00,00,000	0
21	एवियन पक्षु से प्रभावित भुर्गीपालन इकाइयों को ब्याज सहायता योजना	0	2,18,18,877	0	1,79,72,163	38,46,714
इ.	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुद्धार पैकेज					
1	विशेष लेखा परीक्षा व्यय	0	40,00,00,000	0	2,32,48,833	37,67,51,167
2	ऋण सहकारी समितियों को पुनः पूंजीकरण सहायता	0	300,00,00,000	0	0	300,00,00,000
3	तकनीकी सहायता	0	15,00,00,000	0	0	15,00,00,000
4	मानव संसाधन विकास	0	25,00,00,000	0	26,17,037	24,73,82,963
5	कार्यान्वयन लागत	0	20,00,00,000	0	6,40,27,792	13,59,72,208
	जोड़	145,70,11,072	838,78,70,686	64,50,515	273,31,83,495	711,81,48,778
	गत वर्ष	104,58,38,888	349,67,28,768	40,95,461	308,96,52,045	145,70,11,072

ई.	31.03.2007 को	31.03.2006 को
कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत क्षेत्र बैंकों/रास बैंकों/राष्ट्रिय बैंकों को अनुदान	2695,37,95,937	2695,37,95,937
घटाएं : कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत क्षेत्र बैंकों/रास बैंकों/राष्ट्रिय बैंकों को जारी अनुदान	2695,37,95,937	2695,37,95,937
	0	0

अनुसूची 5 - अन्य निधियां

विवरण	01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि / समाप्तोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	(रुपए) 31.03.2007 को शेष
1 वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	578,95,07,776	0	0	34,11,83,958	5,15,54,239	5,15,54,239	602,75,83,256
2 सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) (अनुसूची 18 नोट बी-7 देखें)	135,22,87,258	0	0	7,83,42,299	4,71,26,445	6,36,02,894	131,89,00,128
3 ब्याज विभेदक निधि - (फ्लेक्स जोखिम)	88,27,08,354	14,94,55,858	0	0	0	0	103,21,64,210
4 ब्याज विभेदक निधि-(तावा) (अनुसूची 18 नोट बी-1 देखें)	5,58,01,980	6,76,791	0	0	0	0	6,84,78,771
5 भिक्षुता सहायता निधि - एमएफ (अनुसूची 18 नोट बी-5 देखें)	0	8,26,889	0	68,419	2,19,766	0	6,75,542
6 आदिवासी विकास निधि	2,80,00,680	1,59,22,247	0	0	0	0	4,39,22,927
7 जनजाति विकास निधि	49,39,40,792	220,09,25,423	0	0	5,26,98,800	0	264,21,62,415
जोड़	860,22,46,840	236,78,07,206	0	41,95,94,676	15,15,99,250	11,51,57,223	1112,20,99,249
गत वर्ष	698,61,23,731	148,92,93,211	0	29,74,26,672	8,78,72,131	8,27,24,643	869,22,46,840

अनुसूची 6 - जमाराशियां

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	(रुपए) 31.03.2006 को शेष
1.	केन्द्र सरकार	0	17,26,000
2.	राज्य सरकारें	77,43,350	79,22,550
3.	घाय / रबड़ / कॉफी जमाराशियां	81,38,40,373	78,38,44,170
4.	वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा)	20154,69,95,783	13874,36,93,283
	जोड़	20236,85,79,506	14084,71,86,003

अनुसूची 7 - बांड और डिबेंचर

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	(रुपए) 31.03.2006 को शेष
1	एसएलआर बांड	592,84,11,000	708,80,11,000
2	करमुक्त बांड	1000,00,00,000	1000,00,00,000
3	प्राथमिकता क्षेत्र कर योग्य बांड	5150,50,00,000	5695,50,00,000
4	गैर प्राथमिकता क्षेत्र बांड	13953,80,00,000	4334,00,00,000
5	पूँजी अभिलाष बांड	8190,76,70,000	9184,68,80,000
6	भविष्य निर्माण बांड	3,98,94,750	0
	जोड़	28891,89,75,750	20812,95,91,000

अनुसूची 8 - उधार

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	(रुपए) 31.03.2006 को शेष
1.	केन्द्र सरकार से	382,00,48,949	399,83,07,833
2.	सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	0	2997,95,20,000
3.	अन्य से :		
	(क) भारत में वाणिज्य बैंकों से	2500,00,00,000	2500,00,00,000
	(ख) भारत से बाहर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से	289,69,35,880	294,41,60,177
	जोड़	3171,69,84,829	6192,19,88,010

अनुसूची 9 - चालू देयताएं और प्रावधान

		(रुपए)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	31.03.2006 को शेष
1	ब्याज उपचित लेकिन देय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	19,82,76,567	20,23,56,503
	ख) बांड	955,80,54,653	532,36,09,331
	ग) चाय / रबड़ / कॉफी जमाराशियां	3,41,34,965	2,71,91,661
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमाराशियां (एसएलए)	1,33,645	1,64,804
	ङ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	54,92,090	55,20,300
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां	212,50,43,543	160,92,82,697
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	21,17,808	41,08,219
	उप-जोड़	1192,32,53,271	717,22,33,515
2	विविध लेनदार	62,43,50,412	34,64,12,171
3	ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान	195,07,34,007	164,32,55,000
4	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 नोट बी-8 देखें)	409,45,43,069	321,29,32,255
5	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	72,87,86,145	58,57,44,000
6	भा.रि.बैंक के पास बांडों पर दावा न किया गया ब्याज	18,31,586	18,31,586
7	बांडों पर दावा न किया गया ब्याज - अन्य	1,64,97,227	1,97,94,173
8	परिपक्व बांड लेकिन दावा न किया गया (अनुसूची 18 नोट बी-9 देखें)	8,66,60,000	24,55,00,000
9	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	36,36,31,904	18,18,15,952
	(ख) मानक आस्तियों हेतु	356,85,00,000	270,70,00,000
	(ग) निवेशों के मूल्य में हास हेतु	2,02,20,000	33,09,83,991
	(घ) ब्याज घटक का उत्सर्ग - पुनर्संरचना ऋण	25,51,00,000	31,08,00,000
	(ङ.)अन्य आस्तियों/प्राप्य हेतु प्रावधान	28,30,546	0
	जोड़	2363,69,38,167	1675,83,02,543

अनुसूची 10 - रोकड़ और बैंक शेष

		(रुपए)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	31.03.2006 को शेष
1.	हाथ में शेष रोकड़	22,930	34,034
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	77,61,79,667	103,66,96,888
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेष		
	क) चालू खाते में	12,34,57,820	27,72,31,733
	ख) बैंकों में जमा	6822,50,00,000	4095,00,00,000
4.	मार्गस्थ प्रेषण	98,23,52,467	69,41,77,028
	जोड़	7010,70,12,884	4295,81,39,683

अनुसूची 11 - निवेश

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को सेव	31.03.2006 को सेव
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1438,04,79,151	2471,89,73,220
	अंकित मूल्य रु. 1395,30,50,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 2229,21,30,000)		
	बाजार मूल्य रु. 1423,54,00,587		
	(पिछले वर्ष - रु. 2403,48,61,549)		
	(अनुसूची 18 नोट बी-4 देखें)	0	0
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर	15,60,00,000	15,60,00,000
(क)	एडीएफसी - इक्विटी		
	अंकित मूल्य रु. 15,60,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 15,60,00,000)		
(ख)	एएफसी - इक्विटी	1,00,00,000	1,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 1,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 1,00,00,000)		
(ग)	सिडबी - इक्विटी	48,00,00,000	48,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 16,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 16,00,00,000)		
(घ)	एआईसीआई लि.	60,00,00,000	60,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 60,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 60,00,00,000)		
(ङ)	नैबर्क्स प्रा. लि.	5,00,00,000	5,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 5,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 5,00,00,000)		
(च)	एनसीडीएस लि.	4,50,00,000	4,50,00,000
	अंकित मूल्य रु. 4,50,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 4,50,00,000)		
(छ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि.	1,25,00,000	1,25,00,000
	अंकित मूल्य रु. 1,25,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 1,25,00,000)		
4	अन्य		
(क)	म्युचुअल फंड	500,00,00,000	450,38,05,641
	अंकित मूल्य रु. 500,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 450,00,00,000)		
(ख)	बीवीएफ - एपीआईडीसी - V निवेश	3,00,00,000	2,00,00,000
(ग)	प्रतिभूति युक्त उधार और ऋण वितरण दायित्व	304,23,80,601	0
(घ)	पुनर्भूतित वित्त	0	216,53,14,794
	जोड़	2380,63,59,752	3276,15,93,655

अनुसूची 12 - अग्रिम

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को सेव	31.03.2006 को सेव
1	पुनर्वित्त ऋण:		
(क)	अपदान और विपणन ऋण	14650,66,09,349	9421,15,12,200
(ख)	नाबाई ऋण व्यवस्था	106,90,00,000	196,20,00,000
(ग)	अपदान ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	181,48,44,100	267,02,04,200
(घ)	मध्यावधि निवेश ऋण - गैर परियोजना ऋण	19,20,000	83,20,000
(ङ)	चलनिधि सहायता	2490,59,90,000	2491,79,90,000
(च)	अन्य निवेश ऋण:		
i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 नोट बी-13 देखें)	31682,46,00,425	30156,51,18,634
ii)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	335,13,94,411	387,48,60,498
iii)	अंतरिम वित्त	0	90,00,000
2	प्रत्यक्ष ऋण:		
(क)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	20004,83,05,133	15142,41,48,024
(ख)	अन्य ऋण:		
i)	सहकारिता विकास निधि	65,44,466	1,11,47,598
ii)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	5,84,85,250	8,57,50,000
iii)	वाटरशेड विकास निधि	6,69,77,950	5,00,38,150
(ग)	सह-वित्तपोषण ऋण	42,43,04,590	8,93,07,418
	जोड़	69507,89,75,674	58087,93,96,722

अनुसूची 13 - अचल आस्तियां

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	31.03.2006 को शेष
1.	भूमि [पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत] (अनुसूची 18 नोट बी-12 देखें) प्रारंभिक शेष खाता - भूमि [वर्ष के लिए]	118,01,17,213	117,63,91,682
	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	41,92,758	37,25,531
	रोकड़ शेष (लागत पर)	118,43,09,971	118,01,17,213
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	27,64,43,124	25,10,63,713
	बही मूल्य	90,78,66,847	92,90,53,500
2.	परिसर : (अनुसूची 18 नोट बी-12 देखें) प्रारंभिक शेष खाता - परिसर [वर्ष के लिए]	219,41,01,904	216,50,78,981
	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	25,17,58,782	2,90,22,923
	रोकड़ शेष (लागत पर)	244,58,60,686	219,41,01,904
	घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास	115,10,02,648	105,03,95,207
	बही मूल्य	129,48,58,038	114,37,06,697
3.	फर्नीचर और फिक्सचर्स प्रारंभिक शेष खाता - फर्नीचर और फिक्सचर्स [वर्ष के लिए]	55,02,01,497	52,08,92,637
	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	3,12,93,109	4,15,63,227
	उप-जोड़	58,14,94,606	56,24,55,864
	घटाएं : बिक्री हुई / बटूटे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1,24,04,353	1,22,54,367
	रोकड़ शेष (लागत पर)	56,90,90,253	55,02,01,497
	घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास	48,99,49,909	46,49,71,459
	बही मूल्य	7,91,40,344	8,52,30,038
4.	कम्प्यूटर इंस्टालेशन और कार्यालय उपकरण प्रारंभिक शेष खाता - सीआईओई (वर्ष के लिए)	61,19,88,662	57,96,57,344
	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	5,40,00,453	5,07,93,134
	उप-जोड़	66,59,89,115	63,04,60,478
	घटाएं : बिक्री हुई / बटूटे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3,36,56,137	1,84,71,816
	रोकड़ शेष (लागत पर)	63,23,32,978	61,19,88,662
	घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास	54,84,53,125	52,35,86,535
	बही मूल्य	8,38,79,853	8,84,02,127
5.	वाहन प्रारंभिक शेष खाता - वाहन [वर्ष के लिए]	2,34,67,190	2,55,91,736
	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	2,51,94,335	22,32,106
	उप-जोड़	4,86,61,525	2,78,23,842
	घटाएं : बिक्री हुई / बटूटे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	94,60,281	43,56,652
	रोकड़ शेष (लागत पर)	3,92,01,244	2,34,67,190
	घटाएं : अब तक मूल्य ह्रास	1,80,72,485	1,78,28,887
	बही मूल्य	2,11,28,759	56,38,303
	जोड़	238,68,73,841	225,20,30,665

अनुसूची 14 - अन्य आस्तियां

		(रुपए)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2007	31.03.2006
		को शेष	को शेष
1	उपधित ब्याज		
2	भूस्वामियों के पास जमाराशियां	1527,63,51,104	1141,12,54,737
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में जमाराशियां	1,00,78,020	1,17,32,370
4	स्टाफ को आवास ऋण	1,97,71,966	2,45,24,630
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	88,82,20,879	81,80,46,741
6	भूस्वामियों को अग्रिम	52,91,17,299	53,28,80,641
7	स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों के निर्माण / खरीद हेतु अग्रिम	15,410	1,03,025
8	फुटकर अग्रिम	32,20,81,242	28,87,87,188
9	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को छोड़कर)	25,46,75,770	26,91,42,791
10	आस्थगित कर परिसंपत्ति (अनुसूची 18 नोट बी-10 देखें)	87,80,45,744	152,24,05,729
11	भारत सरकार / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य व्यय	263,34,00,000	225,17,00,000
12	प्राप्य भुनाई राशियां	1,20,48,683	5,74,52,829
	जोड़	0	1,30,83,014
		2082,38,06,117	1720,11,13,695

अनुसूची 15 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

		(रुपए)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2007	31.03.2006
		को शेष	को शेष
1	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
(i)	केन्द्र सरकार से ऋण	28,15,97,902	28,85,21,779
(ii)	भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार	95,54,79,433	175,39,12,774
(iii)	बांड	1534,84,81,549	1017,37,41,165
(iv)	केन्द्र और राज्य सरकारों से विशेष ऋण जमाराशियां	6,49,908	13,24,296
(v)	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियां	4,32,76,102	3,41,25,547
(vi)	ग्रेच्युटी और चिकित्सा निधि	12,75,93,425	11,47,72,737
(vii)	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए उधार	20,52,63,166	20,65,94,819
(viii)	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत जमाराशियां	968,60,78,211	692,93,84,890
(ix)	ग्रामीण संवर्धन समूह निधि	0	1,85,42,120
(x)	ऋण और वित्तीय सेवा निधि	0	2,00,14,102
(xi)	पशुधन विकास कार्यक्रम (उ.प्र. और बिहार)	19,43,236	29,91,441
(xii)	वाटरशेड विकास निधि	34,11,83,958	25,29,48,359
(xiii)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	7,83,42,299	4,44,78,313
(xiv)	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	1,337	43,299
(xv)	केएफडब्ल्यू नाबाई आईजीडब्ल्यूडीपी चरण III महाराष्ट्र	11,53,835	7,62,854
(xvi)	केएफडब्ल्यू नाबाई - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	1,85,057	2,97,867
(xvii)	वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि (आईजीडब्ल्यूडीपी)	15,43,604	11,53,001
(xviii)	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	1,06,478	0
(xix)	भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	169,00,08,018	193,55,24,374
(xx)	ग्रामीण नवोन्मेष निधि	7,08,81,235	3,88,34,081
(xxi)	आजीविका समुन्नयन बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - सुल्तानपुर, उप्र	4,23,150	0
(xxii)	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु एजेंसी दृष्टिकोण - बैंक परियोजना सुल्तानपुर, उ.प्र.	16,97,996	0
(xxiii)	जमा / उधार	37,20,121	0
(xxiv)	आजीविका समुन्नयन बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - रायबरेली, उप्र	2,21,974	0
(xxv)	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु एजेंसी दृष्टिकोण - बैंक परियोजना रायबरेली, उ.प्र.	7,17,452	0
2	प्रतिभूतियुक्त उधार और ऋण वितरण दायित्वों पर बढ़ा	66,29,285	0
3	स्वप प्रभार	3,32,55,072	3,37,02,553
4	प्रतिभूति तथा बांड पर बढ़ा, दलाली, कमीशन और जारी करने संबंधी व्यय	5,32,89,247	8,87,91,978
5	रेपो ब्याज व्यय	0	2,31,06,636
	जोड़	2893,37,23,050	2196,35,68,985

अनुसूची 16 - स्थापना और अन्य व्यय

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	31.03.2006 को शेष
1	वेतन तथा भत्ते	319,29,90,817	184,48,10,670
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधि में अंशदान	151,36,16,340	95,78,83,568
3	निदेशकों और समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते	8,44,879	10,00,918
4	निदेशकों और समिति सदस्यों को शुल्क	50,000	2,500
5	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	17,51,75,766	17,38,37,963
6	यात्रा व्यय	16,22,41,014	17,13,74,535
7	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,44,63,263	2,61,66,131
8	डाक, तार और टेलीफोन	6,56,82,409	5,66,78,077
9	मरम्मत कार्य	3,83,38,993	2,88,24,941
10	लेखा परीक्षा फीस	7,34,053	7,09,414
11	विधि प्रभार	14,17,696	14,18,954
12	अदा किया गया सेवा कर	64,962	0
13	विविध व्यय	35,84,33,218	33,52,64,172
14	विविध आस्तियों पर व्यय	84,54,828	91,02,168
15	अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर व्यय (क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संबंधित स्थापना व्यय रु. 5,13,91,525 (रु.3,50,43,730) शामिल)	20,23,63,077	18,72,05,612
16	निम्नलिखित के अंतर्गत प्रोत्साहन गतिविधियों पर व्यय		
	(i) सहकारी विकास निधि	2,96,13,765	6,06,79,935
	(ii) सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि	6,36,02,984	4,49,26,381
	(iii) वाटरशेड विकास निधि	5,15,54,239	3,77,98,262
	(iv) कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	36,08,782	0
17	सम्पत्ति कर	1,20,16,997	58,98,058
	जोड़	590,52,68,082	394,35,82,259

नोट : वर्ष 2006-07 के दौरान वेतन, भत्तों और अधिवर्षिता निधि अंशदान में 01.11.2002 से 31.03.06 की अवधि से संबंधित वेतन और भाविष्य निधि में बैंक का अंशदान रु. 120.82 करोड़ शामिल है।

अनुसूची 17 - वायदा और आकस्मिक देयताएं

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2007 को शेष	31.03.2006 को शेष
1	निष्पादित किए जाने के लिए शेष पूंजी संविदाओं के लिए प्रतिबद्धता	8,21,00,000	9,45,60,000
2	आकस्मिक देयताएं		
	(i) परिसरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भुगतान के विवादग्रस्त दावे	18,87,64,000	27,30,85,000
	(ii) अपील में आयकर के मामले	39,90,00,000	39,90,00,000

अनुसूची - 18

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं और दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी और प्रयोज्य लेखांकन मानकों के समस्त भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

2. आय और व्यय

2.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज।
- (ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय।
- (iii) कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि (एआरईआईएफ) और केएफडब्ल्यू नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार।
- (iv) व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर रु. 10,000 से अनधिक खर्च की राशि।

2.2 बॉन्ड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बॉन्ड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में माना गया है।

2.3 निवेशों पर लाभांश आय को उस समय हिसाब में लिया गया जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो गयी है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 अचल सम्पत्तियों का उल्लेख उनकी अधिग्रहण लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानियों को घटाकर किया गया है। आस्तियों की लागत में कर, शुल्क, भाड़ा और संबंधित सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा स्थापना पर हुए व्यय शामिल हैं। किसी वर्तमान आस्ति पर बाद में किए जाने वाले व्यय को केवल उसी स्थिति में पूँजीकृत किया गया है जब उस आस्ति से विगत समय के कार्यनिष्पादन स्तर की तुलना में भविष्य में होने वाले लाभ अधिक हुए हैं।

3.2 कार्यालय के लिए आस्तियों की खरीद पर हुए व्यय जिसकी प्रति इकाई लागत रु. 5000/- तक है, उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

3.3 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत भूमि शामिल है।

3.4 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है।

3.5 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर अवस्थित परिसरों के लिए मूल्य ह्रास रिटेन डाउन वैल्यू के आधार पर प्रभारित किया गया है।

3.6 पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्य ह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर मूल्यह्रास की गणना करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम / लागत का परिशोधन कर आकलित राशि के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया।

3.7 निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है, भले ही परिसम्पत्ति की खरीद की तारीख कुछ भी हो और वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

3.8 पूर्ण स्वामित्व वाली अथवा पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों को छोड़कर अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रभारित किया गया है।

4. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन

4.1 अप्रत्यक्ष आस्तियों की पहचान दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 26 "अप्रत्यक्ष आस्तियाँ" में यथानिर्धारित मानदण्डों के अनुसार की गई है।

4.2 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की गणना मूल्य ह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत का परिशोधन कर आकलित राशि के अनुसार किया गया।

5. निवेश

5.1 भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता के लिए धारित' में वर्गीकृत किया गया है (आगे इन्हें श्रेणियाँ कहा गया है)। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को आगे i) सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ iii) शेयर और iv) अन्य में वर्गीकृत किया गया है।

5.2 वर्गीकरण का आधार :

ऐसी आस्तियाँ जिन्हें मुख्य रूप से क्रय की तारीख से 90 दिन के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है उन्हें 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऐसे निवेश जिन्हें बैंक उनकी परिपक्वता तक रखना

चाहता है, उन्हें "परिपक्वता के लिए धारित" में वर्गीकृत किया गया है जो प्रतिभूतियां उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं की जानी हैं उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 "परिपक्वता के लिए धारित" निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई ह्रास / घटाव / परिशोधन हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया गया है।

5.4 बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित निवेशों को निर्धारित अंतराल पर बाजार के लिए मार्क किया जाता है। जबकि बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए केवल निवल मूल्य ह्रास, यदि कुछ हो, का निवेश के लिए प्रावधान किया गया है, व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों की प्रत्येक श्रेणी में मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि की पहचान की गयी है।

5.5 "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं में निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न, कमी हेतु यथावश्यक प्रावधान किया गया है।

5.6 अभिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि की राशि को राजस्व मद में प्रभारित किया गया है।

5.7 ऋण निवेशों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद माना गया है।

5.8 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

इन श्रेणियों में अंतरित होने वाली प्रतिभूति की गणना अंतरण की तारीख को अधिग्रहण कीमत / बही मूल्य / बाजार मूल्य, जो भी सबसे कम हो, तथा इस अंतरण पर मूल्यह्रास यदि कुछ के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान मानदण्डों के अनुरूप और आधिकारिक समीक्षा के आधार पर चिन्हित अग्रिमों के संबंध में अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

6.2 अग्रिमों की पुनर्संरचना / पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भविष्य के ब्याज की वर्तमान कीमत और संशोधित करार के अनुसार भविष्य के ब्याज की वर्तमान कीमत के अंतर का प्रावधान पुनर्संरचना / पुनःअनुसूचीकरण करते समय किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 हेजिंग करार के तहत कवर किए गए विदेशी मुद्रा उधारों को संविदा मूल्य पर लिखा गया है।

7.2 क्रेसी स्वाप करार के निरस्तीकरण अथवा नवीकरण से हुए लाभ / हानि को करार के अंतिम निस्तारण में समायोजित किया गया है।

8. सेवानिवृत्त लाभ

8.1 बैंक में भविष्य निधि योजना है, जिसका प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निधि में वास्तविक आधार पर अंशदान किया जाता है।

8.2 बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी का प्रावधान सभी कर्मचारियों के लिए किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक से स्थानान्तरित कर्मचारी भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक से स्थानान्तरित कर्मचारियों के संबंध में रिजर्व बैंक से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

8.3 पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिकी आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

8.4 पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के संबंध में नियोजता की ओर से भविष्य निधि में अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

8.5 साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

9. आय पर कर

9.1 चालू अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसरण और असेसमेंट / अपील के अनुमानित निष्कर्ष के आधार पर कर योग्य आय और कर क्रेडिट की गणना पर आयकर का निर्धारण किया गया है।

9.2 आस्थगित कर की पहचान लेखांकन आय और वर्ष के लिए कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के आधार पर की गई है। कर की दरों और अधिनियमित अथवा तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कानूनों का प्रयोग करके उसकी मात्रा निर्धारित की गई है।

9.3 आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है जहाँ तक यह तार्किक रूप से निश्चित है कि भविष्य में कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

9.4 अन्य आस्थगित कर आस्तियों की पहचान करके उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जिस सीमा तक व्यवहार्य रूप से निश्चित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

10. खंड रिपोर्टिंग की नीति

10.1 खंड राजस्व में, खंड में सीधे पहचान योग्य / विनियोज्य अन्य आय एवं ब्याज शामिल हैं।

10.2 ऐसे व्यय जो किसी खंड से सीधे पहचान योग्य / विनियोज्य हैं, खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए उनको हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध सम्पूर्ण बैंक से है और जिन्हें घटक में विनियोजित नहीं किया जा सकता है, उनको "अन्य अविनियोज्य व्ययों" में शामिल किया गया है।

10.3 आय जो सम्पूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी घटक में विनियोजित नहीं किया जा सकता है, उसे "अन्य अविनियोज्य - बैंक आय" में शामिल किया गया है।

10.4 संबंधित खंड से सीधे पहचान योग्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ खंड आस्तियों और देयताओं में शामिल हैं। अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ वे हैं जो समग्र रूप से बैंक से संबंधित हैं तथा जो किसी खंड में अविनियोज्य हैं।

11. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

11.1 प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की धारित राशि की अनर्जकता के लिए परीक्षण किया जाता है जिससे,

- क. यदि कुछ हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा
- ख. पिछली अवधि में पहचानी गई क्षतिग्रस्त हानि, यदि कुछ हो तो, उसका प्रत्यावर्तन किया जा सके।

11.2 क्षतिग्रस्त हानि तब मानी जाती है जब किसी आस्ति की धारित राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

12.1 निम्नलिखित स्थितियों में केवल पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन का उपयोग कर आंकी गई देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है:

- (क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है;
- (ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है;
- (ग) देयता की राशि का वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है।

12.2 भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानान्तरित स्टाफ हेतु ग्रेच्युटी प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय राशि, जिसकी गणना नकद आधार पर की जाती है, को छोड़कर व्यय से संबंधित संभावित प्रतिपूर्ति जिसके लिए प्रावधान की आवश्यकता है, केवल उसी स्थिति में मान्य है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

12.3 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित स्थितियों से प्रकट किया जाता है:

- क. पिछली घटना से वर्तमान देयता उद्भूत होती हो। जब इसकी संभावना नहीं है कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी।

ख. जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, तो वर्तमान देयता और ग. पिछली घटनाओं से होने वाला संभावित दायित्व जिसमें संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

12.4 आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

12.5 प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में जमा करके, हिसाब में लिया गया, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है।

2. रास बैंकों / क्षेत्रीय बैंकों को तरलता सहायता के तहत सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार से रु.37.40 करोड़ की ब्याज सहायता राशि प्राप्त हुई, जिसे प्राप्त ब्याज - बैंक के गैर-योजनाबद्ध ऋण और अग्रिमों में शामिल किया गया है।

3. मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को दिए गए रियायती पुनर्वित्त के संबंध में ब्याज सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त / प्राप्तव्य रु.283.02 करोड़ की धनराशि ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज में शामिल है।

4. परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत 31.03.2007 को कुल निवेश 52.6% था। इन निवेशों में रु.10 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रु.11.194 करोड़) की सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय घटक (प्रतिभूतियाँ) के लिए जमानत के रूप में सीसीआईएल के पास बंधक रखी हैं और रु.830 करोड़ के अंकित मूल्य (बही मूल्य रु.912.34 करोड़) की प्रतिभूतियाँ सीसीआईएल के पास व्यवसाय घटक (सीबीएलओ) की जमानत के रूप में गिरवी / धारित थी।

5. चिकित्सा सहायता निधि योजना में 31.03.2006 से संशोधन किया गया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार योजना के तहत पात्र व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है और इस संबंध में प्राप्त अंशदान को बैंक की आय माना जाता है। पहले की चिकित्सा सहायता निधि योजना केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू है।

6. स्विस विकास सहयोग एजेन्सी के साथ हुए सहमति ज्ञापन के अनुसार ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ) से की गई ऋणों की अदायगी,

सेवा प्रभार और अन्य प्राप्तियों को ग्रामीण संवर्धन निधि (आरपीएफ) में जमा किया जा रहा है।

7. आरआईएफ, वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, केएफडब्ल्यू एनबी आईजी डब्ल्यूडीपी - (आंध्र प्रदेश और गुजरात), केएफडब्ल्यू एनबी IX आदिवासी विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश एवं बिहार), एलएबी चक्रीय निधि (सुल्तानपुर एवं राय बरेली) और एमएएफए बैंक - (सुल्तानपुर एवं राय बरेली) की जिस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, उस पर संबंधित करारों के आधार पर 6% की दर से ब्याज की गणना कर ब्याज की धनराशि संबंधित निधि में जमा की गई। माइक्रो वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) की जिस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया उस पर 6.31% की दर से ब्याज की गणना कर ब्याज इस निधि में जमा किया गया।

8. 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी भविष्य निधि खाते की शेष राशि की पुष्टि बैंक को प्राप्त नहीं हुई है। यह पुष्टि प्राप्त होने तक बैंक की बहियों के अनुसार रिजर्व बैंक के पास भविष्य निधि की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है।

9. बैंक द्वारा जारी एसएलआर बाँडों की सर्विसिंग / प्रबंध पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। 01 अक्टूबर 2003 से इन बाँडों की सर्विसिंग का कार्य बैंक ने अपने हाथ में ले लिया। "परिपक्व बाँड्स किंतु दावा नहीं किया गया" के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को बैंक द्वारा 01 अक्टूबर 2003 से आगे किए गए भुगतानों को घटाकर दर्शाया गया है।

10. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों रु.263.34 करोड़ और 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार निवल आस्थगित कर आस्तियों रु.225.17 करोड़ के बीच अंतर की राशि रु.38.17 करोड़ की पहचान लाभ और हानि खाते में कर ली है।

आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताएं निम्नलिखित समय अंतर के कारण थी :

(रु. करोड़)			
क्रम सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	31 मार्च 2007	31 मार्च 2006
1.	बहियों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान जिन पर भुगतान के आधार पर करों में छूट अनुमत्य है	230.85	183.18
2.	अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	24.85	25.58
3.	स्टॉक में भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के लिए ब्याज	0.00	12.33
4.	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	8.24	4.08
	जोड़	263.34	225.17

11. आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के लिए आयकर का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक ने इस प्रारक्षित निधि से आहरण न करने का निर्णय लिया है।

12. "भूमि और परिसर" के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.37.33 करोड़ (रु.41.14 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में स्वामित्व हस्तांतरण होना शेष है।

13. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में बैंक ने अभिदान किया है। इन्हें "अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण" के अंतर्गत शामिल किया गया है। आवंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह अब तक रु.4.99 करोड़ (रु.114.65 करोड़) है।

14. एसडीसी-एचआईडी परियोजना के तहत खरीदी गई आस्तियों पर एसडीसी के हिस्से का मूल्य ह्रास रु.0.0657 करोड़ (रु.0.09 करोड़) घटाकर लाभ एवं हानि खाते में मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है।

15. बैंक के प्रबंध तंत्र के विचार से आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्तता नहीं है अतः लेखांकन मानक-28 'आस्तियों की क्षतिग्रस्तता' के तहत कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

16. एस-29 के तहत आवश्यक आकस्मिक देयताओं में हुई वृद्धि इस प्रकार है :

(रु. करोड़)

विवरण	2006-07	2005-06
अद्य शेष	67.21	83.53
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00	17.50
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	8.43	33.82
इति शेष	58.78	67.21

17. लाभ-हानि खाते में सम्मिलित पूर्व अवधि मदे इस प्रकार है :

(रु. करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2005-06
1	मूल्य ह्रास	0.054	0.52
2	अन्य व्यय	0.135	0.00

18. 31 मार्च 2007 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के समझ 26.97 प्रतिशत है।

19. जहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः वर्गीकृत / पुनःनिर्धारित किए गए हैं।

20. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

21. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2006-07 / 4 (संदर्भ सं. डीबीओडी.एफआईसी.2 / 01.02.00 / 2006-07) दिनांक 01 जुलाई 2006 के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं प्रकट की गई हैं।

I. पूंजी

(क) कैपिटल टू रिस्क - वेटेड एसेट रेशियो (सी आर ए आर) (प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2006
सी आर ए आर	26.97	34.44
कोर सी आर ए आर	25.83	33.10
अनुपूरक सी आर ए आर	1.14	1.34

(ख) सबॉर्डिनेटेड ऋण

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2006
ली गई और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण की राशि	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड एसेट

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2006
ऑन - बैलेंस शीट मदें	35457.59	27279.12
ऑफ - बैलेंस शीट मदें	78.10	67.21

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

(रु. करोड़)

अंशदानकर्ता	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2006
भारतीय रिजर्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
जोड़	2,000	2,000

(ङ) किए गए निवेशों के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियां

(रु. करोड़)

क्रम सं.	जारीकर्ता	धनराशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश	धनराशि निवेश ग्रेड से नीचे धारित प्रतिभूतियां	धारित अनरेटेड प्रतिभूतियां	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2	वितीय संस्थाएं	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00
3	बैंक					
4	प्रायवेट करपोरेट					
5	सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम	20.60	20.60	0.00	20.60	20.60
6	अन्य	509.75	509.75	0.00	0.00	9.75
7	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान #	2.02				
	जोड़	638.35	638.35	0.00	20.60	138.35

सम्म 3 में प्रावधान की राशि का केवल जोड़ दर्शाया जाना है।

(च) अनर्जक निवेश शून्य

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता

(क) निवल एनपीए स्थिति :

विवरण	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2006
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.0330297	0.0000000

(ख) आस्तियों का वर्गीकरण

(रु. करोड़)

वर्गीकरण	2006-07		2005-06	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	69484.94	99.967	58,087.94	100.00
उप-मानक	18.42	0.027	0.000	0.00
संदिग्ध	4.54	0.006	0.000	0.00
हानि	0	0	0.000	0.00
जोड़	69507.90	100.00	58,087.94	100.00

(ग) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

(रु. करोड़)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	2006-07	2005-06
अनर्जक आस्तियां	86.15	70.70
अनर्जक आस्तियां	3.07	0.00
निवेश	(31.08)	32.09
आयकर (अनुत्पादक सहित)	351.70	328.20
जोड़	409.84	430.99

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन (स्टाफ अग्रिमों सहित)

(रु. करोड़)

विवरण	2006-07	2005-06
अ. वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियां	0.14	0.24
आ. जोड़ : वर्ष के दौरान वृद्धि	22.95	0.00
इ. उप-जोड़ (अ + आ)	23.09	0.24
ई. घटाएं : वर्ष के दौरान आई कमी	0.09	0.10
उ. वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियां (इ - ई)	23.00	0.14

(छ) रेपो लेनदेन का प्रकटन :

(रु. करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2007 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	206.55	245.65	2.37	0.00

(ज) ऋण एक्सपोजर की पूँजी निधियों से प्रतिशतता और कुल आस्तियों से प्रतिशतता

वर्ग		2006-07		2005-06	
		ऋण एक्सपोजर (% के रूप में)			
		पूँजी निधियां	कुल आस्तियां	पूँजी निधियां	कुल आस्तियां
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	36.25	4.28	36.70	5.11
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III	वर्ष के दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
1	आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक	36.25	4.28	36.70	5.11
2	महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक	31.01	3.66	15.93	1.99
3	उ.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक	28.78	3.40	31.01	4.32
4	गुजरात राज्य सरकार	26.91	3.18	18.31	2.55
5	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार	24.56	2.90	17.91	2.50
6	भारतीय स्टेट बैंक	21.99	2.60	24.60	3.43
7	पंजाब राज्य सहकारी बैंक	21.90	2.58	29.02	4.04
8	हरियाणा सहकारी बैंक	21.13	2.49	17.68	2.22
9	पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक	18.99	2.24	19.31	2.69
10	हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक	18.68	2.20	19.66	2.74
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(झ) कुल ऋण आस्तियों से पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता : लागू नहीं

III. तरलता

(क) रुपयों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :

(रु. करोड़)

क्रम सं.	मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
1	आस्तियाँ रुपए में	33,529.02 (22,750.18)	20,634.71 (18,214.06)	13,793.73 (12,241.98)	8,648.59 (8,260.35)	4,254.12 (5,866.14)	80,860.18 (67,332.71)
2	देयताएँ रुपए में	16,440.75 (8,312.19)	16,748.27 (22,200.01)	8,768.93 (5,944.65)	7,053.42 (3,089.60)	31,559.12 (27,491.84)	80,570.49 (67,038.29)

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा साथ ही सहायक संस्थाओं के शेयर में निवेश के मूल्य द्वारा के समक्ष प्रावधान, जिन्हें तुलनपत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों से घटाया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

(रु. करोड़)

क्रम सं.	मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
1	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2	विदेशी मुद्रा देयताएँ	6.88 (4.73)	19.69 (16.73)	19.69 (19.69)	19.69 (19.69)	223.73 (233.58)	289.69 (294.42)

IV. परिचालन परिणाम

क्रम सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष 31.3.07 31.3.06
(1)	प्राप्त ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	6.84 6.28
(2)	गैर-ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	-0.15 -0.14
(3)	परिचालन लाभ का औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत	1.75 2.06
(4)	औसत आस्तियों पर आय (%)	1.58 1.83
(5)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.17 0.17

V. प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

विवरण	2006-07	2005-06
क) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	0.22	0.75
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.07	0.18
घटाएं: अतिशय प्रावधानों को बढ़ते खाते डालना, वापस लेना	0.00	0.71
ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	3.29	0.22

(ख) निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान

विवरण	2006-07	(रु.करोड़)
अ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष		33.09 (103.89)
आ जोड़े		
(i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
क मूल्यहास हेतु प्रावधान - एडीएफसी - एपी	0.34	
ख मूल्यहास हेतु प्रावधान - एडीएफसी - टीएन	0.07	
ग मूल्यहास हेतु प्रावधान - एपीआईडीसी - बायोटेक	0.43	0.84 (32.09)
(ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से विनियोजन, यदि कुछ हो	0.00	(0.00)
इ उप जोड़ (अ+आ(i)+आ(ii))		33.93 (135.98)
ई घटाएं		
i) अपलिखित, अतिशय प्रावधान को वापस लेना	31.91	
ii) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण, यदि कुछ हो	0.00	
उ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष (इ-ई.i - ई.ii)	31.91 (102.89)	2.02 (33.09)

VI. पुनर्गठित लेखे

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान, रु.201.67 करोड़ की मानक पुनर्वित्त आस्तियों पर ब्याज को पुनर्गठित किया गया था। इन पुनर्गठित ऋणों पर रु.31.08 के ब्याज घटक का उत्सर्ग हुआ था। चूंकि प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्गठन करना होता है, इसलिए ब्याज घटक कम होकर रु.25.51 करोड़ हो गया है। इस प्रकार रु.5.57 करोड़ को चालू वर्ष में प्रति लिखित करना पड़ा है।

VII. वर्ष के दौरान सेक्योरिटाइजेशन कंपनी / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियां : शून्य

VIII. डेरीवेटिव्स में निवेश से जोखिम के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष 2005-06 के दौरान, बैंक ने रु.200 करोड़ का 10 वर्षीय वायदा दर करार / ब्याज दर स्वाप किया था। चालू वर्ष में उपर्युक्त

करार को निरस्त कर दिया गया है जिससे रु.16,29,100 का लाभ हुआ है।

बैंक डेरीवेटिव्स में व्यापार नहीं करता है। फिर भी बैंक ने केएफडब्ल्यू जर्मनी से लिए गए उधार 58.80 मिलियन यूरो और इस पर उपचित होने वाले ब्याज के संबंध में अपनी देयता के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए हेजिंग की है। विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप इसे स्वाप करार के अनुसार संविदाकृत कीमत पर दर्शाया गया है।

वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार बकाया हेज करार की कीमत रु.371.65 करोड़ थी जिसमें रु.333.43 करोड़ यूरो मूलधन और रु.38.22 करोड़ ब्याज देयता के लिए है। लेखा बहियों में बकाया कीमत, संविदाकृत कीमत अर्थात् रु.322.90 करोड़ है जिसमें रु.289.69 करोड़ यूरो मूलधन के लिए और रु.33.21 करोड़ उस पर ब्याज के लिए है।

IX. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु. करोड़)

पक्षों का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
भारतीय रिजर्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकोती को छोड़कर)	-2997.95 (-929.30)	0.00 (2997.95)
		उधार पर ब्याज	95.55 (175.39)	
		नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान	2.00 (2.00)	
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकोती को छोड़कर)	-18.00 (-4.71)	382.00 (400.00)
		उधार पर ब्याज	28.22 (28.89)	19.83 (20.24)
		गारंटी शुल्क	1.36 (1.66)	
एडीएफटी, चेन्नै	नियंत्रण - शेयर पूंजी का 52.10%	ऋण (चुकोती को छोड़कर)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
एडीएफएल, हैदराबाद	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 47.82%	ऋण (चुकोती को छोड़कर)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		ऋण पर ब्याज	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
केएडीएफसी, बंगलूर	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 82.41%	कोई लेन-देन नहीं	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नाबार्ड कन्स्ट्रक्सी सर्विसेज प्रा. लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि		2.29 (1.47)
डॉ. वाई.एस.पी. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.07 (0.19)*	
डॉ. के.जी. करगकर	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.07 (0.08)*	

* पिछले वर्ष के आंकड़े तत्समय पदासीन अधिकारी से संबंधित हैं।

X. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् है :

- सीधा वित्तपोषण : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों / गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है।

- पुनर्वित्त : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित ऋणों हेतु प्रदत्त पुनर्वित्त।

- ट्रेजरी : कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, अल्पावधि जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश।

- अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के

लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है।

भौगोलिक रूप से चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में करोबार शामिल है :

- i) दक्षिणी अंचल : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.
- ii) पूर्वी अंचल : त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण

महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

- iii) उत्तरी अंचल : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.
- iv) पश्चिमी अंचल : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

क्रम सं. खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्तियाँ	(रु. करोड़) खंड देयताएं
1 सीधा वित्त	1,140.48(856.74)	125.90(133.57)	20,067.75(15,206.49)	20,442.22(14,210.30)
2 पुनर्वित्त	3,036.09(2,595.20)	985.88(949.95)	50,809.53(43,893.56)	48,215.19(42,692.98)
3 ट्रेजरी	556.98(471.55)	566.10(416.76)	9,302.57(7,448.60)	47.22(96.43)
4 अनाबंटित	13.83(12.98)	-507.93(-328.79)	1,040.45(1,056.58)	3,119.07(2,697.73)
जोड़	4,747.38(3,936.47)	1,169.95(1,171.49)	81,220.30(67,605.23)	71,823.70(59,697.44)
# जहां बाहरी देनदारियां नहीं हैं. वहां राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित है.				

ग) द्वितीयक खंड के संबंध में सूचना

क्रम सं.	भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियाँ
1	पूर्वी अंचल	446.03(380.66)	7,401.82(6,567.48)
2	उत्तरी अंचल	1,974.69(1,658.41)	33,257.09(28,264.06)
3	दक्षिणी अंचल	1,251.01(948.41)	20,907.81(17,509.72)
4	पश्चिमी अंचल	1,075.65(948.99)	19,653.59(15,263.97)
	जोड़	4,747.38(3,936.47)	81,220.30(67,605.23)

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
शार्प एण्ड टैनन सनदी लेखाकार
हस्ताक्षरकर्ता :

पी सतीश
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
मुंबई, 28 मई 2007

मिलिंद पी. फडके
साझेदार
सदस्यता सं. 233013
मुंबई, 28 मई 2007

डॉ. य.शं.प. थोरात
अध्यक्ष

डॉ. के.जी. करमाकर
प्रबंध निदेशक

उपा थोरात
निदेशक

अमिताभ वर्मा
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये)

विवरण	2006-07 के दौरान	2005-06 के दौरान
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1169,95,34,260	1171,48,99,439
समयोजन :		
मूल्य ह्रास के लिए	22,66,32,925	22,30,95,661
प्रावधान और परिशोधन के लिए	(12,78,48,545)	50,70,62,073
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3,06,72,109	(52,72,628)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	86,15,00,000	70,70,00,000
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान	(5,57,00,000)	31,08,00,000
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / हानि	(14,28,657)	(25,78,799)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	64,79,25,885	49,03,78,018
अन्य व्यय	23,72,70,962	20,35,49,899
निवेश से आय	(538,24,04,117)	(470,24,51,942)
विभिन्न निधियों से व्यय	(337,15,95,820)	(362,73,83,601)
कार्यशील आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	476,45,59,002	581,90,98,120
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :		
चालू आस्तियां	(3087,58,73,102)	1034,44,16,246
चालू देयताएं	687,86,35,524	60,13,18,291
बांडों से प्राप्ति	8078,93,84,750	3609,03,90,000
उधार में वृद्धि / कमी	(3020,50,03,181)	(2736,19,44,908)
जमा में वृद्धि / कमी	6185,13,93,503	4826,79,84,354
ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(11532,16,29,859)	(9835,68,44,499)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(2211,85,33,363)	(2459,55,82,396)
आयकर का भुगतान	(287,26,40,015)	(364,08,47,302)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(2499,11,73,378)	(2823,64,29,698)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय	538,24,04,117	470,24,51,942
अचल आस्ति में वृद्धि / कमी	(36,00,47,444)	(12,29,72,683)
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	909,41,81,942	1812,67,73,003
शेयरों का क्रय	(1,00,00,000)	(1,25,00,000)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई / से सृजित निवल नकदी (आ)	1410,65,38,615	2269,37,52,262
(ग) गतिविधियों के वित्तपोषण से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान / अंशदान	1075,85,07,965	502,46,61,138
गतिविधियों के वित्तपोषण से निवल नकदी का सृजन (इ)	1075,85,07,965	502,46,61,138
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	(12,61,26,798)	(51,80,16,298)
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	200,81,39,682	252,61,55,980
अवधि की समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष	188,20,12,884	200,81,39,682
नोट : नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में रोकड़, भारि बैंक के पास शेष, भारत में अन्य बैंकों में चालू खातों में शेष और मार्गस्थ प्रेषण शामिल हैं।		
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैनन सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता		
पी सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग मुंबई, 28 मई 2007	मिनिंद पी फडवे साझेदार सदस्यता सं. 233013 मुंबई, 28 मई 2007	
डॉ. य.शं.पा.थोरात अध्यक्ष	डॉ.के.जी.करमाकर प्रबंध निदेशक	उषा थोरात निदेशक
		अमिताभ वर्मा निदेशक

आर कृष्णमूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं का समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता,
नकदी प्रवाह 2006-07

शार्प एण्ड टैनन

सनदी लेखाकार

समेकित वित्तीय विवरण - 2006-07

समेकित वित्तीय विवरणों पर निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2007 की स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) और उसकी सहायक संस्थाओं के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की अपेक्षा रहती है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से चयनित रिपोर्टिंग खाते के अनुरूप हैं और किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की जांच, परीक्षण के आधार पर करना, भी लेखा परीक्षा में, सम्मिलित होता है। प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा से हमारी राय को उचित आधार पर प्राप्त होता है।

हमने सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा नहीं की है। इन सहायक संस्थाओं से संबंधित कुल आस्तियां और राजस्व क्रमशः रु.54.84 करोड़ और रु.11.09 करोड़ हैं। इन वित्तीय विवरणों को संबंधित कम्पनियों के प्रबंधन ने प्रमाणित किया है और हमें प्रस्तुत किया है, तथा हमारे विचार से जहां तक इसका संबंध सहायक संस्थाओं के मामले में शामिल राशियों से है, वह पूर्णतः इन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। चूंकि 31 मार्च 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों को इन कम्पनियों के प्रबंध तंत्र ने समेकित किया और इनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी है अतः इनके बैलेन्स में किसी भी समायोजन का संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।

हम रिपोर्ट देते हैं कि बैंक द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण' की अपेक्षाओं के अनुसार और बैंक तथा समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कम्पनियों के अलग से लेखापरीक्षित / प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

हम रिपोर्ट देते हैं कि हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर और बैंक एवं इसकी सहायक संस्थाओं के अलग से लेखापरीक्षित / प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए हमारा मत है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्न की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं :

- क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च 2007 को बैंक का कार्य व्यापार, ;
- ख) समेकित लाभ और हानि लेखे के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के परिचालनों के समेकित परिणाम ; और
- ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित नकदी प्रवाह.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 मई 2007

शार्प एण्ड टैनन
सनदी लेखाकार
द्वारा हस्ताक्षर

मिलिंद पी. फडके
साक्षेदार

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2007 की स्थिति

(रुपए)

विवरण	31.03.2007	31.03.2006	
देयताएं			
पूंजी	2000,00,00,000	2000,00,00,000	
प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	7810,73,39,264	6979,61,77,808	
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घवधि परिचालन) निधि	13214,00,00,000	13183,00,00,000	
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1533,00,00,000	1522,00,00,000	
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	182,63,92,591	187,12,23,937	
उपहार, अनुदान और उपकृतियां	711,81,48,778	145,70,11,073	
अन्य निधियां	1112,28,92,249	860,22,46,839	
माइनोंरिटी इंटरेस्ट	12,16,67,398	11,62,53,462	
जमा राशियां	20236,85,79,506	14051,71,86,003	
बांड और डिबेंचर	28891,89,75,750	20812,95,91,000	
उधार	3171,69,84,829	6192,19,88,010	
घालू देयताएं और प्रावधान	2377,44,95,135	1680,48,31,975	
कुल देयताएं	81254,54,75,500	67626,65,10,107	
आस्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	7043,58,13,205	4323,54,06,272	
निवेश	2360,03,59,752	3255,55,93,655	
अग्रिम	69524,51,62,159	58100,44,48,382	
अचल आस्तियां	238,84,67,003	225,27,25,819	
अन्य आस्तियां	2087,52,89,743	1721,63,99,796	
विविध खर्च जिसे बढ़ते खाते में नहीं डाला गया	3,83,633	19,36,183	
कुल आस्तियां	81254,54,75,500	67626,65,10,107	
<div>हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैन्सन सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता :</div> <div>पी सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग मुंबई, 28 मई 2007</div> <div>मिलिंद पी फडके साझेदार सदस्यता सं. 33013 मुंबई, 28 मई 2007</div>			
डॉ. य.शं.पा.थोरात अध्यक्ष	डॉ. के.जी.करमाकर प्रबंध निदेशक	उषा थोरात निदेशक	अमितभ वर्मा निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

विवरण	2005-07 के दौरान	2004-06 के दौरान
आय:		
ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	4176,86,42,115	3413,99,13,524
निवेश परिचालनों से आय	540,45,06,642	471,64,08,439
प्राप्त डिस्काउन्ट	18,57,92,392	130,83,014
अन्य प्राप्तियां	22,44,97,392	57,69,44,541
कुल आय	4758,34,38,541	3944,63,49,518
व्यय :		
ब्याज और वित्तीय प्रभार	2893,38,93,282	2196,37,69,257
स्थापना और अन्य खर्च	595,66,67,065	397,22,98,473
मूल्यहास	22,68,90,093	22,32,42,731
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	83,34,66,232	103,18,91,191
निवेश में मूल्यहास	(31,27,81,991)	32,09,47,991
सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	18,18,15,952	18,18,15,952
बढ़ते खाते में डाले गए प्राथमिक खर्च	6,38,150	9,43,590
कुल व्यय	3582,05,88,783	2769,49,09,185
आयकर पूर्व लाभ	1176,28,49,758	1175,14,40,333
आयकर के लिए प्रावधान	353,86,28,210	329,84,58,707
आस्थगित कर (समायोजन)	(38,32,91,142)	(14,21,07,842)
आयकर पश्चात् लाभ	860,75,12,690	859,50,89,468
सहायक संस्थाओं में हानि का हिस्सा जो कि माइनोंरिटी इंटरैस्ट के कारण है	(57,69,385)	(40,98,310)
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	861,32,82,075	859,91,87,778
विनियोजन :		
यथोक्त लाभ	861,32,82,075	859,91,87,778
जोड़ें : लाभ और हानि खाते में नामे डाले गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण	72,93,90,962	161,70,04,899
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	934,26,73,037	1021,61,92,677
निम्नलिखित में अंतरित किया गया :		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	410,00,00,000	450,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	30,00,00,000	30,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	10,00,00,000	10,00,00,000
सहकारिता विकास निधि	2,96,13,765	6,06,79,935
अनुसंधान और विकास निधि	8,88,91,192	6,01,45,321
विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,62,29,603	13,62,29,603
प्रारक्षित निधि	458,79,38,477	505,91,37,818
	934,26,73,037	1021,61,92,677

समेकित लेखों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां

1. समेकन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के अनुसार किया गया है।
2. सभी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षित नहीं हैं। (इकनाटिक कृषि विकास वित्त कं.लि. को छोड़कर)
3. सहायक संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :

सहायक संस्था का नाम	देश जहाँ नियमित है	स्वामित्व में हिस्सा
एग्री डेवलपमेंट फायनान्स (तमिलनाडु) लि.	भारत	52.10
एग्री बिजनेस फायनान्स (ए पी) लि.	भारत	47.82
कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायनान्स कंपनी लि.	भारत	82.40
नाबार्ड कंसल्टेन्सी प्रा.लि.	भारत	100.00

4. एग्री डेवलपमेंट फायनान्स (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फायनान्स (ए पी) लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वैल्यू (डब्ल्यू डी वी) प्रणाली के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया है। जबकि कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायनान्स लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी मूल्यहास प्रणाली के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया है। इस प्रकार नाबार्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल्यहास हेतु अपनाई गई लेखांकन नीति सहायक संस्थाओं द्वारा मूल्यहास के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति से भिन्न है। अतः समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कुल रु.22.69 करोड़ के मूल्यहास में से उस राशि की 0.11 प्रतिशत राशि का निर्धारण कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर डब्ल्यूडीवी / सीधी मूल्यहास प्रणाली को अपनाने से आने वाले मूल्यहास के आधार पर किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
शर्मा एण्ड टैमर सहायी लेखाकार
हस्ताक्षरकर्ता :

पी सतीश
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
मुंबई, 28 मई 2007

मिलिंद पी. फडके
साक्षीदार
संख्या सं 33013
मुंबई, 28 मई 2007

डॉ. य.शं. पा. थोरात
अध्यक्ष

डॉ. के.जी. करमाकर
प्रबंध निदेशक

उषा थोरात
निदेशक

अमितभ बर्म
निदेशक

आर कृष्णमूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए)

विवरण	2006-07 के दौरान	2005-06 के दौरान
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1176,28,49,758	1175,14,40,335
मूल्यवृद्धि	22,68,90,093	22,32,42,730
परिशोधन और निवेश के लिए प्रावधान	(12,78,48,545)	50,70,62,073
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3,06,72,109	97,93,062
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	86,15,00,000	70,70,00,000
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान	(5,57,00,000)	31,08,00,000
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	64,79,25,885	49,03,78,019
अन्य व्यय	23,79,09,112	20,36,79,756
निवेश से आय	(538,24,04,117)	(470,24,51,942)
अचल आस्ति की बिक्री पर लाभ / हानि	(14,28,658)	(25,79,992)
विविध निधियों से व्यय	(337,15,95,820)	(362,73,83,602)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ	482,87,69,817	587,09,80,439
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :		
चालू आस्तियां	(3092,60,31,247)	1033,80,37,852
चालू देयताएं	688,66,58,587	60,09,03,439
बैंकों से प्राप्ति	8078,93,84,750	3609,03,90,000
उधार में वृद्धि / कमी	(3020,50,03,181)	(2736,19,44,908)
जमा राशियों में वृद्धि / कमी	6185,13,93,503	4826,79,84,354
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि / कमी	(11530,48,39,597)	(9832,74,13,808)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(2207,96,67,366)	(2452,10,62,632)
आयकर का भुगतान	(290,08,68,036)	(365,96,18,599)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(2498,05,35,404)	(2818,06,81,231)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अदा किया गया लाभोश	(1,00,00,000)	(30,00,000)
निवेश से आय	538,24,04,117	470,24,51,942
अचल आस्ति की बिक्री पर लाभ / हानि	(36,02,87,748)	(12,40,21,579)
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	909,41,81,942	1812,67,73,003
शेयर / अन्य में निवेश	(1,00,00,000)	(6,28,61,000)
प्राथमिक खर्च	0	0
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गयी निवल नकदी (आ)	1409,62,98,311	2253,93,42,366
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान / अंशदान	1075,85,07,965	502,46,61,138
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटायी गयी निवल नकदी (इ)	1075,85,07,965	502,46,61,138
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	(12,57,29,126)	(51,66,77,727)
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	201,14,75,271	252,81,53,000
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष	188,57,46,145	201,14,75,273
नोट : नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में रोकड़, भारि बैंक के पास शेष, भारत में अन्य बैंकों में चालू खातों में शेष और मार्गस्थ प्रेषण शामिल हैं।		
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैनन सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता :		
पी सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग मुंबई, 28 मई 2007	मिलिंद पी. फडके साझेदार सदस्यता सं. 233013 मुंबई, 28 मई 2007	
डॉ. य.शं.पा. दोरात अध्यक्ष	डॉ. के.जी. करमाकर प्रबंध निदेशक	उषा थोरात निदेशक
		अमिताभ वर्मा निदेशक

आर कृष्णमूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400 001, the 5th July 2007

UBD.CO.BSD.NSB.II/N-3/12.21.353/2007-08—

Whereas the Reserve Bank of India being satisfied that the Kuber Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad has ceased to conduct banking business and taken steps to convert itself into a co-operative credit society, the Reserve Bank of India has vide Order UBD.No.CO..NSB.II/LC-112/12.21.353/2006-07 dated May 23, 2007 cancelled the licence dated January 05, 1999 granted to the Kuber Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad to carry on banking business in India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) (herein after referred to as Act). Therefore in terms of the provisions of Section 36A(2) of the Act, Reserve Bank of India hereby notifies that the Kuber Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat State has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the Act and thereupon all the provisions of the Act applicable to such co-operative bank shall cease to apply to it, except as respects things done or omitted to be done before this notification.

V. S. DAS

Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th July 2007

No N-15/13/11/2/2007-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely

"Areas within the limits of Municipal Committee, Ropar."

R. C. SHARMA

Joint Director (P&D)

New Delhi, the 2nd July 2007

No.U-16/53/2002/Med.II(Guj) In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for the areas to be allocated by Senior State Medical Commissioner Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. G.G Karna	1.8.2007 to 31.7.2008	Jamalpur

(DR.KAMLESH KALRA)
MEDICAL COMMISSIONER

BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 19th June 2007

The Bar Council of India amended Rule 40 and 41 in Chapter II, Part VI of its Rules vide the following resolutions:-

Sl No.	<i>Amended Rule</i>
	<u>RESOLUTIONS AMENDING THE RULE</u>
1.	<p><u>RESOLUTION NO.66/2001</u> (Bar Council of India meeting dated 22nd June, 2001) “Resolved that the Advocates Welfare fees contribution under Rule 40, Chapter II, Part VI of the Bar Council of India Rules be enhanced from Rs.300/- to Rs.600/- as one time payment and the yearly payment from Rs.30/- to Rs.100/-.</p> <p>It is further resolved that this will come into operation from 1st August,2001. This resolution is passed on the basis of the views of the majority of the State Bar Councils who have responded to the Bar Council of India’s circular No.STBC(Cir) No.17/2000 dated 1st July,2000”</p> <p>RESOLVED FURTHER that the Rule 40 in Section IVA, Chapter-II, Part VI of the Rules of the Bar Council of India be amended as follows:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Substitute the figure “300” in place of ‘90’ occurring in between words ‘Rs’ and ‘every’ in the 1st para of the rule. 2. “Substitute figure ‘300’ in place of ‘90’ occurring in between words ‘Rs’ and ‘every’ in the proviso. 3. Substitute the figure ‘600’ in place of ‘300’ occurring in between ‘Rs.300’ and ‘this’ in proviso. 4. Substitute the words and figures ‘1st August,2001’ in place of ‘1st April,1993’ or ‘1-4-1994’ wherever it occurs in the rule and explanation. 5. Delete the words “However, payment made by the concerned advocate before the consolidated payment shall be exclusive of it and no credit shall be given for the payment, but those advocates who have paid consolidated amount of Rs.200/- only as a consolidated amount, Rs.100/- will be required to pay” in the proviso to rule.

The amended rule will read as follows:-

"Every Advocate borne on the rolls of the State Bar Council shall pay to the State Bar Council a sum of Rs.300/- every third year commencing from 1st August,2001 alongwith statement of particulars as given in the form set out at the end of these Rules, the first payment to be made on or before 1st August,2001 or such extended time as notified by the Bar Council of India or the concerned State Bar Council.

Provided further however that an advocate shall be at liberty to pay in lieu of the payment of Rs.300/- every three years a consolidated amount of Rs.600/-. This will be a life time payment to be kept in the fixed deposit by the concerned State Bar Council and interest to be used for the purpose of this rule.

EXPLANATION 1: Statement of particulars as required by Rule 40 in the form set out require to be submitted only once in three years.

EXPLANATION 2: All advocates who are in actual practice and are not drawing salary or not in full time service and not drawing salary from their respective employers are only required to pay the amount referred to in this rule.

EXPLANATION 3: This rule will be effective from 1-8-2001 and for period prior to this, advocate will continue to be covered by old rule."

II RESOLUTION NO. 92/2001

Bar Council of India meeting dated 24th, 25th and 26th August, 2001)

'RESOLVED that the following be added to Rule 40 in chapter II, Part VI after the proviso:

" Out of life time payment, 80% of the amount will be retained by the State Bar Council in a fixed deposit and remaining 20% has to be transferred to the Bar Council of India. The Bar Council of India and State Bar Council have to keep the same in a fixed deposit and the interest on the said deposits shall alone be utilised for the Welfare of the Advocates."

RESOLUTION NO.93/2001

(Bar Council of India Meeting dated 24th, 25th and 26th August, 2001)

III A RESOLVED that the following be added between the word "Council" and "and" the following:-

"and the Bar Council of India at the ratio of 80:20 as envisaged under Rule 41."

RESOLVED FURTHER that the Advocates Welfare Fund collected by the State Bar Councils should be administered in the name of "Bar Council of India Advocates Welfare Fund" and the words "for the State" occurring in Rule 41(1) between the words "fund" and 'and' be deleted."

	<p>The Rule as amended as follows:-</p> <p>“Every Advocate borne on the rolls of the Sate Bar Council shall pay to the State Bar Council a sum of Rs.300/- every third year commencing from 1st August,2001 alongwith statement of particulars as given in the form set out at the end of these Rules, the first payment to be made on or before 1st August,2001 or such extended time as notified by the Bar Council of India or the concerned State Bar Council.</p> <p>Provided further however that an advocate shall be at liberty to pay in lieu of the payment of Rs.300/- every three years a consolidated amount of Rs.600/-. This will be a life time payment to be kept in the fixed deposit by the concerned State Bar Council and the Bar Council of India at the ratio of 80:20 and interest to be used for the purpose of this rule.</p> <p>B. The rule 41 (1) after deleting the words “for the State” will read as follows:-</p> <p>All the sums so collected by the State Bar Council in accordance with Rule 40 shall be credited in a separate fund known as “Bar Council of India Advocates Welfare Fund and shall be deposited in the bank as provided hereunder.</p> <p>.....</p> <p><u>RESOLUTION NO. 130/2006</u> (BAR COUNCIL OF INDIA MEETING DATED 15TH AND 16TH SEPTEMBER 2006)</p> <p>IV “RESOLVED that the Advocates Welfare Fund fees contribution under Rule 40, Chapter II, Part VI of the Bar Council of India Rules be enhanced from Rs.600/- to Rs.1000/-.</p> <p>IT IS FURTHER RESOLVED that this will come into operation from 1st October, 2006.</p> <p>EXPLANTION NO. 1:- Statement of particulars as required by Rule 40 in the form set out shall be required to be submitted only once in 3 years.</p> <p>EXPLANATION NO. 2:- The advocates who are in actual practice and are not drawing salary or not in full time service and not drawing salary from their respective employers are only required to pay the amount referred to in this rule.</p> <p>EXPLANTION NO. 3:- This rule will be effective from <u>1.10.2006</u> and for period prior to this, advocates will continue to be covered by old rule.</p>
V	<p>The Bar Council of India at its meeting held on 5th and 6th May, 2007 elected the following members as Chairman and Vice-Chairman respectively and passed the following resolution:-</p> <p><u>RESOLUTION No. 62/2007</u> “RESOLVED that Shri S. Gopakumaran Nair, Member, Bar Council of India be and is hereby unanimously elected as Chairman of Bar Council of India for the term ending 16.4.2008.</p> <p><u>RESOLUTION No. 63/2007</u> “RESOLVED that Shri Jai Ram Beniwal, Member, Bar Council of India be and is hereby unanimously elected as Vice-Chairman of Bar Council of India for the term ending 16.4.2008.</p>

Dated 19.6.2007
New Delhi- 110 002

(S. RADHAKRISHNAN)
SECRETARY

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Mumbai-400 051, the 26th July 2007

No. GSR.—In pursuance of Section 48(5) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Balance Sheet of the National Bank for Agriculture and Rural Development as at 31 March 2007, the Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2007 (April 2006—March 2007) and the Report of the Auditors for the year are published herewith.

R. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager & Secretary

SHARP & TANNAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of The National Bank for Agriculture and Rural Development (the 'Bank') as at 31st March 2007 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 14 Regional Offices and 1 Training Centre audited by us. These offices and training Centre have been selected by us in consultation with the Bank in terms of notification no. 1/4/2004-BOA dated 9th March 2007 issued by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division). Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns from 14 Regional Offices, 1 Sub-Office and 2 Training Centres which have not been subjected to audit. These unaudited offices account for 11.55 % of advances, 3.48% of deposits, 12.45 % of interest income and 3.34% of interest expense. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit mentioned in paragraph 1 above we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. In our opinion, the transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- c. The returns received from the Regional Offices and Training Centres of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;
- d. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984;
- e. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank:
 - i. the Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up in conformity with the accounting principles generally accepted in India so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2007; and
 - ii. the Profit and Loss Account read with the Significant Accounting Policies and notes thereon shows a true balance of the profit in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year ended 31st March 2007; and
 - iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Place: Mumbai
Dated: 28 May 2007

Sharp & Tannan
Chartered Accountants
by the hand of

Milind P. Phadke
Partner

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2007**

(Rupees)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.2007	AS ON 31.03.2006
1.	Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	Reserve Fund and other Reserves	1	7802,41,16,398	6974,47,24,916
3.	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	2	13214,00,00,000	13183,00,00,000
4.	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	2	1533,00,00,000	1522,00,00,000
5.	Funds out of grants received from International Agencies	3	182,63,92,591	187,12,23,936
6.	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	4	711,81,48,778	145,70,11,072
7.	Other Funds	5	1112,28,92,249	860,22,46,840
8.	Deposits	6	20236,85,79,506	14051,71,86,003
9.	Bonds and Debentures	7	28691,89,75,750	20812,95,91,000
10.	Borrowings	8	3171,69,84,829	6192,19,88,010
11.	Current Liabilities and Provisions	9	2363,69,38,167	1675,83,02,643
	Total		81220,30,28,268	67605,22,74,420
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		371,65,47,961	315,91,70,276
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes forming part of the Accounts	18		
Sr.No.	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	AS ON 31.03.2007	AS ON 31.03.2006
1.	Cash and Bank Balances	10	7010,70,12,884	4295,81,39,853
2.	Investments	11	2380,63,59,752	3276,15,93,635
3.	Advances	12	69507,89,75,674	58087,93,96,722
4.	Fixed Assets	13	238,68,73,841	225,20,30,665
5.	Other Assets	14	2082,38,06,117	1720,11,13,695
	Total		81220,30,28,268	67605,22,74,420
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		371,65,47,961	315,91,70,276
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes forming part of the Accounts	18		
<p>P. Satish Chief General Manager Finance and Accounts Department Mumbai, 28 May 2007</p>			<p>As per our report attached Sharp & Tannan Chartered Accountants by the hand of</p> <p>Milind P. Phadke Partner Membership No. 33013 Mumbai, 28 May 2007</p>	
Dr. Y. S. P. Thorat Chairman	Dr. K. G. Karmakar Managing Director	Usha Thorat Director	Amitabh Verma Director	

R Krishnamurthy
CGM & Secretary
National Bank for Agriculture
and Rural Development, Mumbai

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2007**

(Rupees)

Sr.No.	INCOME	SCHEDULE	During 2006-07	During 2005-06
1.	Interest received on Loans and Advances		4176,56,91,825	3413,59,20,826
2.	Income from Investment Operations		538,24,04,117	470,24,51,942
3.	Discount and Commission		19,57,92,392	1,30,83,014
4.	Other Receipts		13,98,93,546	51,32,80,007
	Total 'A'		4747,37,81,880	3936,47,35,789

Sr.No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	During 2006-07	During 2005-06
1.	Interest and Financial Charges	15	2893,37,23,050	2196,35,68,985
2.	Establishment and Other Expenses	16	590,52,68,082	394,35,82,259
3.	Depreciation (Refer Notes B - 14 & B - 17 of Schedule 18)		22,66,32,925	22,30,95,662
4.	Provision for :			
	(a) Amortisation of G.Sec		18,18,15,952	18,18,15,952
	(b) Standard Assets		86,15,00,000	70,70,00,000
	(c) Non-Performing Assets		3,06,72,109	-52,72,628
	(d) Provision for NB Gen. Advances		-17,31,052	42,98,129
	(e) Depreciation in Investments G.Sec		-31,27,81,991	31,27,81,991
	(f) Depreciation in Value of Investment Account Equity		20,18,000	81,66,000
	(g) Sacrifice in Interest element of restructured Accounts		-5,57,00,000	31,08,00,000
	(h) Provision for Other Assets / Receivable		28,30,546	0
	Total 'B'		3577,42,47,621	2764,98,36,350
5.	Profit before Income Tax (A - B)		1169,95,34,259	1171,48,99,439
6.	(a) Provision for Income Tax		349,00,00,000	325,00,00,000
	(b) Deferred Tax -Asset (Adjustment)		-38,17,00,000	-13,97,00,000
	(c) Provision for Fringe Benefit Tax		2,70,00,000	3,20,00,000
7.	Profit after Income Tax		856,42,34,259	857,25,99,439

PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(Rupees)

Sr.No.	APPROPRIATIONS/WITHDRAWALS	AS ON 31.03.2007	AS ON 31.03.2006
1.	Profit for the year brought down	856,42,34,259	857,25,99,439
	Add: Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c		
	i. Co-operative Development Fund (Refer Schedule 1)	2,96,13,765	6,06,79,935
	ii. Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	8,88,91,192	6,01,45,321
	iii. Watershed Development Fund (Refer Schedule 5)	5,15,54,239	3,77,98,262
	iv. Micro Finance Development and Equity Fund (Refer Schedule 5)	6,36,02,984	4,49,26,381
	v. Investment Fluctuation Reserve (Refer Schedule 1)	49,21,20,000	141,34,55,000
	vi. Farm Innovation & Promotion Fund (Refer Schedule 1)	36,08,782	0
		929,36,25,221	1018,96,04,338
2.	Profit available for Appropriation		
	Less: Transferred to:		
	i. Special Reserves u/s 36 (1) (viii) of IT Act, 1961	410,00,00,000	450,00,00,000
	ii. NRC (LTO) Fund	30,00,00,000	30,00,00,000
	iii. NRC (Stabilisation) Fund	10,00,00,000	10,00,00,000
	iv. Co-operative Development Fund	2,96,13,765	6,06,79,935
	v. Research and Development Fund	8,88,91,192	6,01,45,321
	vi. Foreign Currency Risk Fund	13,62,29,603	13,62,29,603
	vii. Reserve Fund	453,88,90,661	503,25,49,479
	Total	929,36,25,221	1018,96,04,338

Refer Schedule 18 for Significant Accounting Policies and Notes forming part of the Accounts.

P. Satish
Chief General Manager
Finance and Accounts Department
Mumbai, 28 May 2007

As per our report attached
Sharp & Tannan Chartered Accountants
by the hand of
Milind P. Phadke
Partner
Membership No. 33013
Mumbai, 28 May 2007

Dr. Y. S. P. Thorat
Chairman

Dr. K. G. Karmakar
Managing Director

Usha Thorat
Director

Amitabh Verma
Director

R Krishnamurthy
CGM & Secretary
National Bank for Agriculture
and Rural Development, Mumbai

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2006	Additions/ adjustments during the year	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2007
1.	Reserve Fund	3859,80,22,375	0	453,88,90,661	0	4313,69,13,036
2.	Research and Development Fund	50,00,00,000	0	8,88,91,192	8,88,91,192	50,00,00,000
3.	Capital Reserve	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	Investment Fluctuation Reserve	96,42,75,000	0	0	49,21,20,000	47,21,55,000
5.	Co-operative Development Fund	75,00,00,000	0	2,96,13,765	2,96,13,765	75,00,00,000
6.	Soft Loan Assistance Fund for Margin Money	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	Agriculture & Rural Enterprise Incubation Fund	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	Foreign Currency Risk Fund	133,43,74,333	0	13,62,29,603	0	147,06,03,936
9.	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	2665,00,00,000	0	410,00,00,000	0	3075,00,00,000
10.	Farm Innovation & Promotion Fund	5,00,00,000	0	0	36,08,782	4,63,91,218
Total		6974,47,24,916	0	889,36,25,221	61,42,33,739	7802,41,16,398
Previous year		6148,94,00,834	0	978,96,04,338	153,42,80,256	6974,47,24,916

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2006	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2007
1.	NRC (Long Term Operations) Fund	13183,00,00,000	1,00,00,000	30,00,00,000	13214,00,00,000
2.	NRC (Stabilisation) Fund	1522,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1533,00,00,000
Total		14705,00,00,000	2,00,00,000	40,00,00,000	14747,00,00,000
Previous year		14663,00,00,000	2,00,00,000	40,00,00,000	14705,00,00,000

Schedule 3 - Funds Out of Grants received from International Agencies

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2006	Grants received/ adjusted during the year	Interest credited to the Fund	Exp./Disb./ adjust. during the year	Balance as on 31.03.2007
1.	National Bank - Swiss Development Coop. Project	47,75,64,774	5,51,07,826	0	0	53,26,72,600
2.	Rural Innovation Fund (Refer Note B-7 of Schedule 18)	133,33,03,452	0	7,08,81,235	15,19,49,544	125,22,35,143
3.	Rural Promotion Fund	78,96,472	2,47,84,234	0	0	3,26,80,706
4.	KfW-Fund for Watershed Development (Refer Note B-7 of Schedule 18)	4,71,29,224	0	15,43,605	4,71,29,224	15,43,605
5.	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	53,30,014	5,32,20,757	0	5,12,90,234	72,60,537
Total		187,12,23,936	13,31,12,817	7,24,24,840	25,03,69,002	182,63,92,591
Previous year		191,00,38,418	156,65,13,238	7,85,43,304	168,38,71,024	187,12,23,936

Schedule 4 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2006	Grant received during the year	Interest Credited to the Fund	Adjusted against the expenditure	Closing Balance as on 31.03.2007
A.						
1.	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme (Refer Note B-7 of Schedule 18)	89,93,059	9,31,91,341	1,85,057	9,76,01,594	45,67,863
2.	KfW-NB-Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra (Refer Note B-7 of Schedule 18)	2,12,479	4,23,32,686	11,53,835	31,86,497	4,05,12,503
3.	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh (Refer Note B-7 of Schedule 18)	49,217	82,55,880	1,337	49,64,753	33,41,661
4.	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	36,90,877	1,06,478	13,82,628	24,14,727
5.	NABARD Grant for Fixed Assets under NB-SDC HID Project	14,87,766	0	0	6,57,520	8,30,246
B.						
1.	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects	5,04,26,210	74,47,38,400	0	57,21,78,550	22,29,86,060
2.	Credit Linked Cap. Subsidy for Tech. Upgradation of SSIs	1,20,68,667	82,82,000	0	2,01,12,794	2,37,873
3.	Capital Investment Subsidy for Rural Godowns	42,09,87,501	59,30,11,482	0	67,51,47,352	33,88,51,631
4.	On-farm Water Management for Crop Production	4,77,35,506	0	0	3,97,05,590	80,29,916
5.	Million Shallow Tubewell Programme	40,17,48,979	100,00,00,000	0	-55,38,73,213	195,56,22,192
6.	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh (Refer Note B-7 of Schedule 18)	1,90,04,412	0	9,27,823	1,03,95,000	95,37,235
7.	Cattle Development Programme - Bihar (Refer Note B-7 of Schedule 18)	2,08,70,349	0	10,15,413	1,15,50,000	1,03,35,762
8.	National Project on Organic Farming	7,24,16,040	1,00,00,000	0	1,98,29,393	6,25,86,647
9.	Integrated Watershed Development Programme-Rashtriya Sam Vikas Yojana	9,92,82,326	0	0	40,35,238	9,52,47,088
10.	Capital Investment Subsidy Scheme - Horticulture Development - Bihar	11,35,07,208	0	0	-32,02,289	11,67,09,497
11.	Rain Water Harvesting Scheme	0	6,95,81,100	0	3,53,36,730	3,42,44,370
12.	Kutch Drought Proofing Project	2,75,11,331	22,043	0	1,22,76,801	1,52,56,573
13.	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	7,96,172	16,00,00,000	0	12,52,81,280	3,55,14,892
14.	Capital Subsidy for Agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardisation	15,99,13,850	25,00,00,000	0	26,65,04,790	14,34,09,060
15.	Vidarbha Package	0	125,00,00,000	0	125,00,00,000	0
16.	Livelihood Advancement Business School - Sultanpur, UP (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	1,23,00,000	4,23,150	61,50,000	65,73,150
17.	Livelihood Advancement Business School- Rae Bareilly, UP (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	1,20,00,000	2,21,974	0	1,22,21,974
18.	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur, UP (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	3,93,24,000	16,97,996	67,71,662	3,42,50,334
19.	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareilly, UP (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	3,93,22,000	7,17,452	1,91,25,000	2,09,14,452
20.	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinics Agri-Business Centres	0	3,00,00,000	0	0	3,00,00,000
21.	Interest Subvention Scheme to Poultry Units Affected for Avian Flu	0	2,18,18,877	0	1,79,72,163	38,46,714
C.						
Revival Package of Short-Term Co-operative Credit Structure						
1.	Cost of Special Audit	0	40,00,00,000	0	2,32,48,833	37,67,51,167
2.	Recapitalisation Assistance to Credit Cooperative Societies	0	300,00,00,000	0	0	300,00,00,000
3.	Technical Assistance	0	15,00,00,000	0	0	15,00,00,000
4.	Human Resources Development	0	25,00,00,000	0	26,17,037	24,73,82,963
5.	Implementation Cost	0	20,00,00,000	0	6,40,27,792	13,59,72,208
Total		145,70,11,072	838,78,70,686	64,50,515	273,31,83,495	711,81,48,778
Previous year		104,58,38,888	349,67,28,768	40,95,461	308,96,52,045	145,70,11,072

		As on 31.03.2007	As on 31.03.2006
D.			
Grants to RRBs/SCBs/SLDBs under ARDR Scheme, 1990		2695,37,95,937	2695,37,95,937
Less: Grants Released to RRBs/SCBs/SLDBs under ARDR Scheme, 1990		2695,37,95,937	2695,37,95,937
		0	0

Schedule 5 - Other Funds

(Rupees)							
Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2006	Additions/ Adjustments during the year	Transferred from P & L Appropriation	Interest Credited	Expenditure/ Disb. during the year	Transferred to P&L Appropriation
1.	Watershed Development Fund (Refer Note B-7 of Schedule 18)	578,95,07,776	0	0	34,11,83,958	5,15,54,239	5,15,54,239
2.	Micro Finance Development and Equity Fund (Refer Note B-7 of Schedule 18)	135,22,87,258	0	0	7,83,42,299	4,71,26,445	6,36,02,984
3.	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	88,27,08,354	14,94,55,856	0	0	0	0
4.	Interest Differential Fund - (Tawa) (Refer Note B-1 of Schedule 18)	5,58,01,980	6,76,791	0	0	0	0
5.	Medical Assistance Fund (Refer Note B-5 of Schedule 18)	0	8,26,889	0	68,419	2,19,766	0
6.	Adivasi Development Fund	2,80,00,680	1,59,22,247	0	0	0	0
7.	Tribal Development Fund	49,39,40,792	220,09,25,423	0	0	5,26,98,800	0
	Total	860,22,46,840	236,78,07,206	0	41,95,94,676	15,15,99,250	11,51,57,223
	Previous year	698,61,23,731	148,92,93,211	0	29,74,26,672	8,78,72,131	8,27,24,643

Schedule 6 - Deposits

(Rupees)		
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007
1.	Central Government	0
2.	State Governments	77,43,350
3.	Tea/Rubber/Coffee Deposits	81,38,40,373
4.	Commercial Banks (Deposits under RIDF)	20154,69,95,783
	Total	20236,85,79,506

Schedule 7 - Bonds and Debentures

(Rupees)		
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007
1.	SLR Bonds	592,84,11,000
2.	Tax Free Bonds	1000,00,00,000
3.	Priority Sector Taxable Bonds	5150,50,00,000
4.	Non-Priority Sector Bonds	13953,80,00,000
5.	Capital Gains Bonds	8190,76,70,000
6.	Bhavishya Nirman Bonds	3,98,94,750
	Total	28891,89,75,750

Schedule 8 - Borrowings

(Rupees)		
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007
1.	From Central Government	382,00,48,949
2.	From RBI under General Line of Credit	0
3.	From Others :	
	(a) In India	
	From Commercial Banks	2500,00,00,000
	(b) Outside India	
	From International Agencies	289,69,35,880
	Total	3171,69,84,829

Schedule 9 - Current Liabilities and Provisions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	Interest Accrued but not due on		
	(a) Loans from Central Government	19,82,76,567	20,23,56,503
	(b) Bonds	955,80,54,653	532,36,09,331
	(c) Tea/Rubber/Coffee Deposits	3,41,34,965	2,71,91,661
	(d) Deposits from Central and State Governments (SLA)	1,33,645	1,64,804
	(e) Borrowings from International Agencies	54,92,090	55,20,300
	(f) Deposits under RIDF	212,50,43,543	160,92,82,697
	(g) Commercial Bank Borrowings	21,17,808	41,08,219
	Sub - Total	1192,32,53,271	717,22,33,515
2.	Sundry Creditors	62,43,50,412	34,64,12,171
3.	Provision for Gratuity	195,07,34,007	164,32,55,000
4.	Provision for Pension (Refer Note B-8 of Schedule 18)	409,45,43,069	321,29,32,255
5.	Provision for Encashment of Ordinary Leave	72,87,86,145	58,57,44,000
6.	Unclaimed Interest on Bonds with RBI	18,31,586	18,31,586
7.	Unclaimed Interest on Bonds - Others	1,64,97,227	1,97,94,173
8.	Bonds matured but not claimed (Refer Note B-9 of Schedule 18)	8,66,60,000	24,55,00,000
9.	Provisions and Contingencies		
	(a) Amortisation of G.Sec	36,36,31,904	18,18,15,952
	(b) For Standard Assets	356,85,00,000	270,70,00,000
	(c) Depreciation in value of investments	2,02,20,000	33,09,83,991
	(d) Sacrifice in interest element of restructured Loans	25,51,00,000	31,08,00,000
	(e) Provision for Other Assets / Receivable	28,30,546	0
	Total	2363,69,38,167	1675,83,02,643

Schedule 10 - Cash and Bank Balances

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	Cash in hand	22,930	34,034
2.	Balance with Reserve Bank of India	77,61,79,667	103,66,96,888
3.	Balances with other Banks in India		
	(a) On Current Account	12,34,57,820	27,72,31,733
	(b) Deposits with Banks	6822,50,00,000	4095,00,00,000
4.	Remittances in Transit	98,23,52,467	69,41,77,028
	Total	7010,70,12,884	4295,81,39,683

Schedule 11 - Investments

		(Rupees)	
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	Government Securities		
	Securities of Central Government		
	Face Value Rs.1395,30,50,000	1438,04,79,151	2471,89,73,220
	(Previous year - Rs.2229,21,30,000)		
	Market Value Rs.1423,54,00,587		
	(Previous year - Rs.2403,48,61,549)		
	(Refer Note B-4 of Schedule 18)		
2.	Other Approved Securities	0	0
3.	Shares		
(a)	ADFC - Equity	15,60,00,000	15,60,00,000
	Face Value Rs.15,60,00,000		
	(Previous year - Rs.15,60,00,000)		
(b)	AFC - Equity	1,00,00,000	1,00,00,000
	Face Value Rs.1,00,00,000		
	(Previous year - Rs.1,00,00,000)		
(c)	SIDBI-Equity	48,00,00,000	48,00,00,000
	Face Value Rs.16,00,00,000		
	(Previous year - Rs.16,00,00,000)		
(d)	AICI LTD.	60,00,00,000	60,00,00,000
	Face Value Rs.60,00,00,000		
	(Previous year - Rs.60,00,00,000)		
(e)	NABCONS Pvt. Ltd.	5,00,00,000	5,00,00,000
	Face Value Rs.5,00,00,000		
	(Previous year - Rs.5,00,00,000)		
(f)	NCDEX Ltd.	4,50,00,000	4,50,00,000
	Face Value Rs.4,50,00,000		
	(Previous year - Rs.4,50,00,000)		
(g)	Multi Commodity Exchange Ltd.	1,25,00,000	1,25,00,000
	Face Value Rs.1,25,00,000		
	(Previous year - Rs.1,25,00,000)		
4.	Others		
(a)	Mutual Funds	500,00,00,000	450,38,05,641
	Face Value Rs.500,00,00,000		
	(Previous year - Rs.450,00,00,000)		
(b)	BVF-APIIC-V Investment	3,00,00,000	2,00,00,000
(c)	Collateralised Borrowing and Lending Obligations	304,23,80,601	0
(d)	Bills Rediscounted	0	216,53,14,794
Total		2380,63,59,752	3276,15,93,655

Schedule 12 - Advances

		(Rupees)	
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	Refinance Loans		
(a)	Production & Marketing Credit	14650,56,99,349	9421,15,12,200
(b)	NABARD Line of Credit	106,90,00,000	196,20,00,000
(c)	Conversion Loans for Production Credit	181,48,44,100	267,02,04,200
(d)	Medium Term Investment Credit- Non-Project loans	19,20,000	83,20,000
(e)	Liquidity Support	2490,59,90,000	2491,79,90,000
(f)	Other Investment Credit :		
	i. Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B-13 of Schedule 18)	31682,46,00,425	30156,51,18,634
	ii. Long Term Non-Project Loans	335,13,94,411	387,48,60,498
	iii. Interim Finance	0	90,00,000
2.	Direct Loans		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	20004,83,05,133	15142,41,48,024
(b)	Other Loans:		
	i. Co-operative Development Fund	65,44,466	1,11,47,598
	ii. Micro Finance Development and Equity Fund	5,84,85,250	8,57,50,000
	iii. Watershed Development Fund	6,69,77,950	5,00,36,150
(c)	Co-Finance Loans	42,43,04,590	8,93,07,418
Total		69507,89,75,674	58087,93,96,722

Schedule 13 - Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	(Rupees)	
		Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	LAND : Freehold & Leasehold (Refer Note B- 12 of Schedule 18)		
	Opening Balance a/c - Land (for the year)	118,01,17,213	117,63,91,682
	Additions/adjustments during the year	41,92,758	37,25,531
	Closing Balance (at cost)	118,43,09,971	118,01,17,213
	Less: Amortization of Lease Premia	27,64,43,124	25,10,63,713
	Book Value	90,78,66,847	92,90,53,500
2.	PREMISES : (Refer Note B- 12 of Schedule 18)		
	Opening Balance a/c - Premises (for the year)	219,41,01,904	216,50,78,981
	Additions/adjustments during the year	25,17,58,782	2,90,22,923
	Closing Balance (at cost)	244,58,60,686	219,41,01,904
	Less: Depreciation to date	115,10,02,648	105,03,95,207
	Book Value	129,48,58,038	114,37,06,697
3.	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance a/c - Furniture & Fixture (for the year)	55,02,01,497	52,08,92,637
	Additions/adjustments during the year	3,12,93,109	4,15,63,227
	Sub-Total	58,14,94,606	56,24,55,864
	Less: Cost of assets sold/written off	1,24,04,353	1,22,54,367
	Closing Balance (at cost)	56,90,90,253	55,02,01,497
	Less: Depreciation to date	48,99,49,909	46,49,71,459
	Book Value	7,91,40,344	8,52,30,038
4.	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance a/c - CIOE (for the year)	61,19,88,662	57,96,67,344
	Additions/adjustments during the year	5,40,00,453	5,07,93,134
	Sub-Total	66,59,89,115	63,04,60,478
	Less: Cost of assets sold/written off	3,36,56,137	1,84,71,816
	Closing Balance (at cost)	63,23,32,978	61,19,88,662
	Less: Depreciation to date	54,84,53,125	52,35,86,535
	Book Value	8,38,79,853	8,84,02,127
5.	VEHICLES		
	Opening Balance a/c - Vehicles (for the year)	2,34,67,190	2,55,91,736
	Additions/adjustments during the year	2,51,94,335	22,32,106
	Sub-Total	4,86,61,525	2,78,23,842
	Less: Cost of assets sold/written off	94,60,281	43,56,652
	Closing Balance (at cost)	3,92,01,244	2,34,67,190
	Less: Depreciation to date	1,80,72,485	1,78,28,887
	Book Value	2,11,28,759	56,38,303
Total		238,68,73,841	225,20,30,665

Schedule 14 - Other Assets

(Rupees)

Sr. Particulars No.	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1. Accrued Interest	1527,63,51,104	1141,12,54,737
2. Deposits with Landlords	1,00,78,020	1,17,32,370
3. Deposits with Government Departments and Other Institutions	1,97,71,966	2,45,24,630
4. Housing loan to staff	88,82,20,879	81,80,46,741
5. Other Advances to staff	52,91,17,299	53,28,80,641
6. Advances to Landlords	15,410	1,03,025
7. Advance for Construction/Purchase of Staff Quarters & Office Premises	32,20,81,242	28,87,87,188
8. Sundry Advances	25,46,75,770	26,91,42,791
9. Advance Tax (Net of Provision for Income Tax)	87,80,45,744	152,24,05,729
10. Deferred Tax Assets (Refer Note B-10 of Schedule 18)	263,34,00,000	225,17,00,000
11. Expenditure recoverable from Government of India/International Agencies.	1,20,48,683	5,74,52,829
12. Discount Receivable	0	1,30,83,014
Total	2082,38,06,117	1720,11,13,695

Schedule 15 - Interest and Financial Charges

(Rupees)

Sr. Particulars No.	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1. Interest Paid on		
i. Loans from Central Government	28,15,97,902	28,85,21,779
ii. Borrowings from Reserve Bank of India	95,54,79,433	175,39,12,774
iii. Bonds	1534,84,81,549	1017,37,41,165
iv. Special Loan Deposits from Central and State Governments	6,49,908	13,24,296
v. Tea/Coffee/Rubber Deposits	4,32,76,102	3,41,25,547
vi. Gratuity & Medical Fund	12,75,93,425	11,47,72,737
vii. Borrowings from International Agencies	20,52,63,166	20,65,94,819
viii. Deposits under RIDF	968,60,78,211	692,93,84,890
ix. Rural Promotion Corpus Fund	0	1,85,42,120
x. Credit and Financial Services Fund	0	2,00,14,102
xi. Cattle Development Programme (UP & Bihar)	19,43,236	29,91,441
xii. Watershed Development Fund	34,11,83,958	25,29,48,359
xiii. Micro-Finance Development and Equity Fund	7,83,42,299	4,44,78,313
xiv. Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	1,337	43,299
xv. KfW-NB Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	11,53,835	7,62,854
xvi. KfW - NB - IX Adivasi Development Programme	1,85,057	2,97,867
xvii. KfW Fund for Watershed Development (IGWDP)	15,43,604	11,53,901
xviii. Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	1,06,478	0
xix. Corporate Borrowings from Banks and FIs in India	169,00,08,018	193,55,24,374
xx. Rural Innovation Fund	7,08,81,235	3,88,34,081
xxi. Livelihood Advancement Business School RF Project - Sultanpur, UP	4,23,150	0
xxii. Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Sultanpur, UP	16,97,996	0
xxiii. Deposits / Borrowings	37,20,121	0
xxiv. Livelihood Advancement Business School RF Project- Rae Bareilly, UP	2,21,974	0
xxv. Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Rae Bareilly, UP	7,17,452	0
2. Discount on Collateralised Borrowing and Lending Obligations	66,29,285	0
3. Swap Charges	3,32,55,072	3,37,02,553
4. Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	5,32,89,247	8,87,91,978
5. Repo Interest Expenditure	0	2,31,06,636
Total	2893,37,23,050	2196,35,68,985

Schedule 16 - Establishment and Other Expenses

		(Rupees)	
Sr. No.	Particulars	Balance as on 31.03.2007	Balance as on 31.03.2006
1.	Salaries and Allowances	319,29,90,817	184,48,10,670
2.	Contribution to Staff Superannuation Funds	151,36,16,340	95,78,83,568
3.	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	8,44,879	10,00,918
4.	Directors' & Committee Members' Fees	50,000	2,500
5.	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	17,51,75,766	17,38,37,963
6.	Travelling Expenses	16,22,41,014	17,13,74,535
7.	Printing & Stationery	2,44,63,263	2,61,66,131
8.	Postage, Telegrams & Telephones	6,56,82,409	5,66,78,077
9.	Repairs	3,83,38,993	2,88,24,941
10.	Auditors' Fees	7,34,053	7,09,414
11.	Legal Charges	14,17,696	14,18,954
12.	Service Tax Paid	64,962	0
13.	Miscellaneous Expenses	35,84,33,218	33,52,64,172
14.	Expenditure on Misc. Assets	84,54,828	91,02,168
15.	Expenditure on Study & Training [Including Rs.5,13,91,525 (Rs.3,50,43,730) pertaining to establishment expenses of Regional Training Colleges.]	20,23,63,077	18,72,05,612
16.	Expenditure on promotional activities under		
i.	Co-operative Development Fund	2,96,13,765	6,06,79,935
ii.	Micro-Finance Development and Equity Fund	6,36,02,984	4,49,26,381
iii.	Watershed Development Fund	5,15,54,239	3,77,98,262
iv.	Farm Innovation and Promotion Fund	36,08,782	0
17.	Wealth Tax	1,20,16,997	58,98,058
Total		590,52,68,082	394,35,82,259
<i>Note : Expenditure on Salary and Allowances & Contribution to Superannuation Fund during 2006-07 includes Rs.120.82 crore, being Salaries and Bank's Contribution to PF pertaining to period from 01.11.2002 to 31.03.2006.</i>			

Schedule 17- Commitments and Contingent Liabilities

		(Rupees)	
Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2007	As on 31.03.2006
1.	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	8,21,00,000	9,45,60,000
2.	Contingent Liabilities		
(i)	Disputed claims for additional payments towards construction of premises	18,87,64,000	27,30,85,000
(ii)	Income tax matters in appeal	39,90,00,000	39,90,00,000

Schedule -18

A. Significant Accounting Policies

1. General

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply in all material aspects with applicable accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2. Income and expenditure

2.1. Income and expenditure are accounted on accrual basis except the following, which are accounted on cash basis:

- (i) Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.
- (ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- (iii) Service Charges on loans given out of Agriculture and Rural Enterprises Incubation Fund (AREIF) and KfW-NABARD V Fund for Adivasi Programme.
- (iv) Expenses not exceeding Rs.10,000/- at each accounting unit under a single head of expenditure.

2.2 Issue expenses relating to floatation of bonds are recognised as expenditure in the year of issue of Bonds.

2.3 Dividend incomes on investments are accounted for when the right to receive the dividend is established.

3. Fixed Assets and Depreciation

3.1. Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on the existing assets is capitalised only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

3.2. Expenditure incurred on assets purchased for the office, which are costing upto Rs.5000/- per unit is charged to Profit and Loss Account.

3.3 Land includes free hold and leasehold land.

3.4 Premises include value of land where segregated values are not readily available.

3.5 Depreciation on premises situated on free hold land is charged on written down value basis.

3.6 Depreciation on premises situated on leasehold land is computed and charged at higher of 5% on written down value basis or the amount derived by amortising the premium / cost over the remaining lease period of the land on straight-line basis.

3.7 Depreciation is charged at the prescribed rates, for the full year irrespective of the date of purchase of the asset and no depreciation is charged for the assets sold during the year.

3.8 Depreciation on fixed assets is charged on Straight Line Method except for premises situated on freehold and leasehold land.

4. Intangible Assets and Amortisation

4.1 Intangible assets are recognized as per the criteria specified in Accounting Standard (AS) 26 "Intangible Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

4.2 Amortisation of lease premium paid on leasehold land is computed and charged at higher of 5% on written down value basis or the amount derived by amortising the premium / cost over the remaining lease period of the land on straight-line basis.

5. Investments

5.1 In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, Investments are classified into 'Held for Trading', 'Available for Sale' and 'Held to Maturity' categories (hereinafter called "categories"). Under each of these categories, investments are further classified as (i) Government securities (ii) other approved securities (iii) shares and (iv) others.

5.2 Basis of Classification

Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading". Investments that the Bank intends to hold till maturity

are classified as "Held to Maturity". Securities which are not to be classified in the above categories, are classified as "Available for Sale".

5.3 Investments categorized under "Held to Maturity" are carried at cost and provision for depreciation/ diminution / amortisation, if any, in value of investments is included under Current Liabilities and Provisions.

5.4 The investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' are marked to market at prescribed intervals. While only net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "Available for Sale", depreciation or appreciation is recognised in the category for investments classified as "Held for Trading".

5.5 The provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries under the category "Held to maturity" is made, wherever necessary.

5.6 Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition, are charged to revenue.

5.7 Broken period interest on debt investment is treated as a revenue item.

5.8 Transfer of security between categories:
The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost /book value/market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

6. Advances and Provisions thereon

6.1 Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for non-performing assets is made in respect of identified advances based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.

6.2 In case of restructuring / rescheduling of advances, the difference between the present value of the future interest as per the original agreement and the present value of the future interest as per the revised agreement is provided for at the time of restructuring / rescheduling.

7. Foreign Currency Transactions

7.1 Foreign currency borrowings, which are covered by hedging agreements, are stated at the contract price.

7.2 Profit/loss on cancellation of or renewal of cur-

rency SWAP agreement is accounted for on the final settlement of agreement.

8. Retirement Benefits

8.1 The Bank has a Provident Fund Scheme managed by RBI. Contributions to the Fund are made on actual basis.

8.2 Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, in respect of all employees including employees transferred from RBI. The amount of gratuity due from RBI, in respect of employees transferred from RBI, is accounted on cash basis.

8.3 Provision for Pension is made based on actuarial valuation.

8.4 The amounts representing employer's contribution to Provident Fund relating to the pension optees (which is now part of Pension Fund) are maintained with RBI.

8.5 Provision for Encashment of Ordinary Leave is made on the basis of actuarial valuation.

9. Taxes on Income

9.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on expected outcome of assessments/ appeals.

9.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between the taxable income and accounting income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantially enacted as on Balance Sheet date.

9.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/ business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

9.4 Other deferred tax assets are recognised and carried forward to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

10. Policy on Segment Reporting

10.1 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with/ allocable to the segment.

10.2 Expenses that are directly identifiable with / allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments are included under "Other unallocable Expenditure".

10.3 Income which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other unallocable bank income".

10.4 Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable assets and liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

11. Impairment of Assets

11.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:

- a. the provision for impairment loss, if any required; or
- b. the reversal, if any, required for impairment loss recognised in the previous periods.

11.2 Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

12.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

- a. the Bank has a present obligation as a result of a past event;
- b. a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- c. the amount of the obligation can be reliably estimated.

12.2 Reimbursement, expected in respect of expenditure, which require a provision, is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received except the amounts due from RBI for gratuity provision for staff transferred from RBI, which are accounted on cash basis.

12.3 Contingent liability is disclosed in the case of:

- a. a present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation.

- b. a present obligation when no reliable estimate is possible and.
- c. a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.

12.4 Contingent Assets are neither recognised nor disclosed.

12.5 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

B. Notes forming part of the Accounts

1. In terms of TAWA Command Area Development Project Agreement, interest chargeable by the Government of India on loans to the Bank at 6.5% per annum has been accounted to the extent of 4.5% by credit to the "Interest Differential Fund" to be utilised for certain specified purposes and the balance of 2% has been paid to Government of India.

2. An amount of Rs.37.40 crores representing the Interest Subvention received from Government of India for providing assistance under Liquidity Support to SCBs / RRBs has been included in the Interest Received - Non- Sch. Loans & Advances of the bank.

3. Interest received on loans and advances includes an amount of Rs.283.02 crores received / receivable from GoI towards Interest subvention on concessional refinance provided to RRBs and Co-operatives for financing Seasonal Agricultural Operations.

4. The total investments under "Held to Maturity" category are 52.6% as on 31.03.2007. These Investments include Government securities of the face value of Rs. 10 crores (Book Value Rs.11.194 crores) pledged/held with CCIL as collateral holding for business segment (securities) and Securities of the face value of Rs.830 crores (book value Rs.912.34 crores) pledged / held with CCIL as collateral holding for Business Segment (CBLO).

5. 'Medical Assistance Fund' scheme has been modified with effect from 31.03.2006. Under the revised procedure, the expenditure eligible under the scheme is treated as revenue expenditure and the contribution received is treated as income for the bank. The earlier MAF scheme continues to be in operation only in respect of retired employees.

6. In accordance with the Memorandum Of Understanding entered into with the Swiss Agency for Development Cooperation, the repayments of

loan, service charges and other receipts made out of Rural Innovation Fund (RIF) are being credited to the Rural Promotion Fund (RPF).

7. Interest @ 6.00% per annum for the year on unutilised balances of RIF, KfW fund for Watershed Development, KfW-NB-IGWDP - (Andhra Pradesh & Gujarat), KfW-NB-IX Adivasi Development Programme, Cattle Development Programme (Uttar Pradesh & Bihar), LAB's Revolving Fund (Sultanpur & Rae Bareilly) and MAFA BAIF - (Sultanpur and Rae Bareilly) has been credited to the respective funds based on the respective agreements. Interest @ 6.31% per annum for the year on unutilised balance of Micro Finance Development and Equity Fund (MFDEF) has been credited to the fund.

8. The Bank has not received the confirmation of balance of Provident Fund Account as on 31.03.2007 maintained with RBI. Pending receipt of such confirmation, provision for pension is made after considering the balance of PF maintained with RBI as per the books of the Bank.

9. The SLR Bonds issued by the Bank were serviced/managed earlier by RBI. From 1st October 2003, the servicing of these bonds was taken over by the Bank. The outstanding balance payable on account of 'bonds matured but not claimed' and unclaimed interest has been shown net of payments since made by the Bank from 1st Oct 2003 onwards.

10. The Bank has, during the year, in accordance with Accounting Standard 22 "Accounting for taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, recognized in the Profit and Loss account the difference of Rs.38.17 crores between net deferred tax assets of Rs.263.34 crores as at 31st March, 2007 and net deferred tax assets of Rs.225.17 crores as at 31st March, 2006.

Deferred tax assets / liabilities are on account of the following timing difference:

(Rs. crore)			
Sr. No.	Deferred Tax Assets	31 March 2007	31 March 2006
1.	Provision for Retirement Benefits made in the books but allowable for tax purposes on payment basis	230.25	183.18
2.	Depreciation on Fixed Assets	24.85	25.58
3.	Broken period interest on Govt securities in stock	0	12.33
4.	Amortisation of G. Sec	8.24	4.08
	Total	263.34	225.17

11. Provision for Income Tax on account of special reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

12. 'Land' and 'Premises' includes Rs. 37.33 crores (Rs. 41.14 crores) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

13. The Bank has subscribed to debentures issued by various State Land Development Banks/State Co-operative Agriculture & Rural Development Banks, which are included under "Advances - Other Investment Credit - Medium-Term and Long-Term Project Loans". The value of Allotment Letters/ Debenture Scripts, yet to be received, as on date, aggregates to Rs.4.99 crore (Rs.114.65 crore).

14. Depreciation charged in Profit & Loss Account is net of SDC's share of depreciation amounting to Rs.0.0657 crores (Rs.0.09 crores) on assets purchased under SDC-HID project.

15. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to the assets to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

16. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 is as under:

(Rs. crore)		
Particulars	2006-07	2005-06
Opening Balance	67.21	83.53
Provided during the year	0.00	17.50
Reversed during the year	8.43	33.82
Closing Balance	58.78	67.21

17. Prior period items included in the profit and loss account are as follows:

			(Rs. crore)
Sr. No.	Particulars	2006-07	2005-06
1.	Depreciation	0.054	0.52
2.	Other Expenses	0.135	0.00

18. Capital adequacy ratio of the Bank as on 31.03.2007 is 26.97% as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

19. Previous year's figures have been regrouped/ recast wherever necessary.

20. The figures in brackets pertain to previous year.

21. The following additional information is disclosed in terms of RBI circular No.RBI/2006-07/4 (Ref.No.DBOD.FID.FIC.2/01.02.00/2006-07) dated 1 July 2006.

I. Capital

(a) Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR)

Particulars	(Per cent)	
	31 March 2007	31 March 2006
CRAR	26.97	34.44
Core CRAR	25.83	33.10
Supplementary CRAR	1.14	1.34

(b) Subordinated Debt

Particulars	(Rs. crore)	
	31 March 2007	31 March 2006
Amount of subordinated debt raised and outstanding	Nil	Nil

(c) Risk weighted assets

Particulars	(Rs. crore)	
	31 March 2007	31 March 2006
On - Balance Sheet Items	35,457.59	27,279.12
Off - Balance Sheet Items	78.10	67.21

(d) Pattern of Capital contribution as on the date of the balance sheet

Contributor	(Rs. crore)	
	31 March 2007	31 March 2006
Reserve Bank of India	1,450	1,450
Government of India	550	550
Total	2,000	2,000

II. Asset quality and credit concentration

(a) Net NPA position:

Particulars	31 March 2007	31 March 2006
Percentage of Net NPAs to Net Loans & Advances	0.0330297	0.000000

(b) Asset classification

Classification	(Rs. crore)			
	2006-07		2005-06	
	Amount	(%)	Amount	(%)
Standard	69484.94	99.967	58,087.94	100.00
Sub-standard	18.42	0.027	0.00	0.00
Doubtful	4.54	0.006	0.00	0.00
Loss	0	0	0.00	0.00
Total	69507.90	100.00	58,087.94	100.00

(c) Provisions made during the year:

Provisions against	(Rs. crore)	
	2006-07	2005-06
Standard assets	86.15	70.70
Non Performing Assets	3.07	0.00
Investments	(31.08)	32.09
Income Tax (including Fringe Benefit Tax)	351.70	328.20
Total	409.84	430.99

(d) Movement in Net NPAs (Including Staff Advances):

Particulars	(Rs. crore)	
	2006-07	2005-06
A. Net NPAs as at beginning of the year	0.14	0.24
B. Add: Additions during the year	22.95	0.00
C. Sub-total (A+B)	23.09	0.24
D. Less: Reductions during the year	0.09	0.10
E. Net NPAs as at the end of the year (C-D)	23.00	0.14

II (e) Issuer categories in respect of investments made

Sr. No.	Issuer	Amount	(Rs. crore)			
			Investment made through private placement	'Below investment grade' Securities held	'Unrated' Securities held	'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2	FIs	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00
3	Banks					
4	Private corporates					
5	Subsidiaries/ Joint ventures	20.60	20.60	0.00	20.60	20.60
6	Others	509.75	509.75	0.00	0.00	9.75
7	Provision held towards depreciation *	2.02				
Total		638.35	638.35	0.00	20.60	138.35

* Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

(f) Non performing investments : NIL

(g) Disclosure on Repo transactions:

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31 March 2007
Securities sold under Repo	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse Repo	206.55	245.65	2.37	0.00

(h) Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

Category	Percentage to Total Assets			
	2006-07		2005-06	
	Credit Exposure (as % to)			
	Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I. Largest Single Borrower	36.25	4.28	36.70	5.11
II. Largest Borrower Group	NA	NA	NA	NA
III. Ten Largest Single Borrowers for the year				
1. Andhra Pradesh Co-operative Bank	36.25	4.28	36.70	5.11
2. Maharashtra State Co-operative Bank	31.01	3.66	15.93	1.99
3. UP State Land Development Bank	28.78	3.40	31.01	4.32
4. Gujarat State Government	26.91	3.18	18.31	2.55
5. Andhra Pradesh State Government	24.56	2.90	17.91	2.50
6. State Bank of India	21.99	2.60	24.60	3.43
7. Punjab State Co-Op Bank	21.90	2.58	29.02	4.04
8. Haryana State Co-Op Bank	21.13	2.49	17.68	2.22
9. Punjab State Land Development Bank	18.99	2.24	19.31	2.69
10. Haryana State Land Development Bank	18.68	2.20	19.66	2.74
IV. Ten Largest Borrower Groups	NA	NA	NA	NA
NA: Not applicable				

NA: Not applicable

(i) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

III. Liquidity:

(a) Maturity pattern of rupee assets and liabilities:

Sr. No.	Item	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total #
1.	Rupee assets	33,529.02 (22,750.18)	20,634.71 (18,214.06)	13,793.73 (12,241.98)	8,648.59 (8,260.35)	4,254.12 (5,866.14)	80,860.18 (67,332.71)
2.	Rupee liabilities	16,440.75 (8,312.19)	16,748.27 (22,200.01)	8,768.93 (5,944.65)	7,053.42 (3,089.60)	31,559.12 (27,491.84)	80,570.49 (67,038.29)

: In terms of RBI instructions, provisions towards Standard Assets and also the provision against depreciation in the value of investment in shares of subsidiaries, that are reflected as Liabilities in the Balance Sheet, have been reduced in the aforesaid table from the Assets.

(b) Maturity pattern of foreign currency assets and liabilities:

Sr. No.	Item	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total
1.	Foreign Currency Assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2.	Foreign currency liabilities	6.88 (4.73)	19.69 (16.73)	19.69 (19.69)	19.69 (19.69)	223.73 (233.58)	289.69 (294.42)

IV. Operating results:

Sr. No.	Particulars	For the year ended	
		31.3.07	31.3.06
1.	Interest income as a percentage to average working funds	6.84	6.28
2.	Non interest income as a percentage to average working funds	-0.15	-0.14
3.	Operating profit as a percentage to average working funds	1.75	2.06
4.	Return on average Assets (%)	1.58	1.83
5.	Net Profit per Employee (Rs. crore)	0.17	0.17

V. Movement in the provisions**a) Provision for Non Performing Assets**

		(Rs. crore)	
Particulars		2006-07	2005-06
a)	Opening balance as at the beginning of the financial year	0.22	0.75
	Add Provision made during the year	3.07	0.18
	Less Write off, write back of excess provision	0.00	0.71
b)	Closing balance at the close of the financial year	3.29	0.22

(b) Provision for depreciation in investments

		(Rs. crore)	
Particulars		2006-07	
A.	Opening balance as at the beginning of the financial year		33.09 (103.89)
B.	Add		
	i) Provisions made during the year		
	a. Provision for depreciation-ADFC-AP	0.34	
	b. Provision for depreciation-ADFC - TN	0.07	
	c. Provision for depreciation-APIDC-Bio Tech	0.43	0.84 (32.09)
	ii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	(0.00)
C.	Sub Total [A+B(i)+B(ii)]		33.93 (135.98)
D.	Less		
	i) Write off, Write Backs of excess provision	31.91	
	ii) Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	
E.	Closing balance as at the close of the financial year (C-D)	31.91 (102.89)	2.02 (33.09)

VI. Restructured accounts

In Financial Year 2005-06, interest on refinance loan assets aggregating Rs.201.67 crores was restructured. The interest sacrifice element of these restructured loans was Rs.31.08 crores. As the restructuring has to be done at each Balance Sheet date the interest element has come down to Rs.25.51 crores. Thus Rs.5.57 crores had to be written back in the current year.

VII. Assets sold to securitisation company/ reconstruction company : NIL**VIII. Disclosure on risk exposure in derivatives**

Last year in 2005-06 the Bank entered into a 10 years Forward rate agreement/interest rate swap for an amount of Rs 200 crores. During the current year the above-

mentioned contract has been cancelled which has resulted in a profit of Rs.16.29,100.

The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its liability towards borrowings from KfW, Germany to the extent of Euro 58.80 million and interest thereon for a period of 10 years. Consequent upon hedging of foreign currency borrowings the same is shown at contract value as per the swap agreement.

The value of outstanding hedge contract at the year-end exchange rate stood at Rs.371.65 crores, consisting of Rs. 333.43 crores towards Euro Principal and Rs.38.22 crores towards interest liability. The value of outstanding liability in the books of account stood at contracted value, i.e., Rs.322.90 crores, consisting of Rs.289.69 crores towards Euro Principal and Rs.33.21 crores towards interest thereon.

IX. Related Party Transactions

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amt. of transaction during the year	(Rs. crore) Outstanding
Reserve Bank of India	Holding 72.50% of NABARD Capital	Borrowings (net of repayments) Interest on Borrowings Contribution Recd. in NRC Funds maintained by NABARD	-2,997.95 (-929.30) 95.55 (175.39) 2.00 (2.00)	0.00 (2,997.95)
Government of India	Holding - 27.50% of NABARD Capital	Borrowings (net of repayments) Interest on Borrowings Guarantee Fee	-18.00 (-4.71) 28.22 (28.89) 1.36 (1.66)	382.00 (400.00) 19.83 (20.24)
ADFT Chennai	Control 52.10% of share capital	Lending (net of repayment)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ABFL, Hyderabad	Control 47.82% of Share Capital held by NABARD	Lending (net of repayments) Interest on lending	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)
KADFC, Bangalore	Control 82.41% of share capital	No transaction	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd.	Wholly Owned Subsidiary	Expenses incurred by NABARD		2.29 (1.47)
Dr. Y.S.P. Thorat	Key Management Personnel - Chairman	Remuneration including perquisites	0.07 (0.19)*	
Dr. K.G. Karmakar	Key Management Personnel - Managing Director	Remuneration including perquisites	0.07 (0.08)*	

* Previous year figures pertain to incumbent in that year

X. Information on Business Segment**a) Brief Background:**

Primary business segments recognised by the Bank are as under:

- i) Direct Finance: Loans given to state governments for rural infrastructure development and loans given to voluntary agencies / non-governmental organisations for developmental activities are included in this segment.
- ii) Refinance: Loans and Advances given to state

governments, Commercial Banks, Land Development Banks, State Co-operative Banks, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.

- iii) Treasury: The investment of funds under call money, treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.
- iv) Unallocated: This segment includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and the expenditure

incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

RTC Bolpur, Nagaland, Sikkim, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh and Meghalaya.

Secondary business segments identified geographically, cover the business at the following states:

iii) **North Zone:** Madhya Pradesh, Haryana & Punjab, Bihar, New Delhi, Jharkand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, NBSC Lucknow, Jammu & Kashmir, Rajasthan and Uttarakhand.

i) **South Zone:** Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and RTC, Mangalore.

iv) **West Zone:** Gujarat, Goa, Maharashtra and Head Office, Mumbai

ii) **East Zone:** Tripura, Mizoram, Orissa, West Bengal,

b) Information on Primary Business Segment

(Rs. crore)

Sr. No.	Segment	Segment Revenue from External Customers	Segment Results	Segment Assets	Segment Liabilities#
1.	Direct Finance	1,140.48(856.74)	125.90(133.57)	20,067.75(15,206.49)	20,442.22(14,210.30)
2.	Refinance	3,036.09(2,595.20)	985.88(949.95)	50,809.53(43,893.56)	48,215.19(42,692.98)
3.	Treasury	556.98(471.55)	566.10(416.76)	9,302.57(7,448.60)	47.22(96.43)
4.	Unallocated	13.83(12.98)	-507.93(-328.79)	1,040.45(1,056.58)	3,119.07(2,697.73)
Total		4,747.38(3,936.47)	1,169.95(1,171.49)	81,220.30(67,605.23)	71,823.70(59,697.44)
# : Includes balances in NRC (LTO) and NRC (Stab.) Funds where there is no external obligation.					

(c) Information on Secondary Segment

(Rs. crore)

Sr. No.	Geographical Segments	Segment Revenue from External Customers	Segment Assets
1.	East Zone	446.03(380.66)	7,401.82(6,567.48)
2.	North Zone	1,974.69(1,658.41)	33,257.09(28,264.06)
3.	South Zone	1,251.01(948.41)	20,907.81(17,509.72)
4.	West Zone	1,075.65(948.99)	19,653.59(15,263.97)
Total		4,747.38(3,936.47)	81,220.30(67,605.23)

As per our report attached
Sharp and Tannan
Chartered Accountants
by the hand of

P. Satish
Chief General Manager
Finance and Accounts Department
Mumbai, 28 May 2007

Milind P. Phadke
Partner
Membership No. 33013
Mumbai, 28 May 2007

Dr. Y. S. P. Thorat
Chairman

Dr. K. G. Karmakar
Managing Director

Usha Thorat
Director

Amitabh Verma
Director

R Krishnamurthy
CGM & Secretary
National Bank for Agriculture
and Rural Development, Mumbai

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2007**

(Rupees)

Particulars	During 2006-07	During 2005-06
(a) Cash flow from Operating activities		
Net profit as per P & L A/C before tax	1169,95,34,260	1171,48,99,439
Adjustment for:		
Depreciation	22,66,32,925	22,30,95,661
Provisions and Amortisations	(12,78,48,545)	50,70,62,073
Provision for Non performing Assets	3,06,72,109	(52,72,628)
Provision for Standard Assets	86,15,00,000	70,70,00,000
Provision for Sacrifice interest on restructured loan	(5,57,00,000)	31,08,00,000
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	(14,28,657)	(25,78,799)
Interest credited to various funds	64,79,25,885	49,03,78,018
Other expenses	23,72,70,962	20,35,49,899
Income from Investment	(538,24,04,117)	(470,24,51,942)
Expenditure from various funds	(337,15,95,820)	(362,73,83,601)
Operating profit before changes in operating assets	476,45,59,002	581,90,98,120
Adjustment for net change in:		
Current Assets	(3087,58,73,102)	1034,44,16,246
Current liabilities	687,86,35,524	60,13,18,291
Proceeds of Bonds	8078,93,84,750	3609,03,90,000
Increase / Decrease in Borrowings	(3020,50,03,181)	(2736,19,44,908)
Increase / Decrease in Deposits	6185,13,93,503	4826,79,84,354
Increase in Loans and Advances	(11532,16,29,859)	(9835,68,44,499)
Cash generated from operating activities	(2211,85,33,363)	(2459,55,82,396)
Payment of Income tax	(287,26,40,015)	(364,08,47,302)
Net cash flow from operating activities (A)	(2499,11,73,378)	(2823,64,29,698)
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment	538,24,04,117	470,24,51,942
Increase / Decrease in Fixed Asset	(36,00,47,444)	(12,29,72,683)
Investments in Government Securities	909,41,81,942	1812,67,73,003
Purchase of shares	(1,00,00,000)	(1,25,00,000)
Net cash used / generated from investing activities (B)	1410,65,38,615	2269,37,52,262
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	1075,85,07,965	502,46,61,138
Net cash raised from financing activities (C)	1075,85,07,965	502,46,61,138
Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	(12,61,26,798)	(51,80,16,298)
Cash and Cash equivalent at the beginning of the period	200,81,39,682	252,61,55,980
Cash and cash equivalent at the end of the period	188,20,12,884	200,81,39,682
<i>Note: Cash and Cash equivalent includes Cash on Hand, Balance with RBI, Balances with other banks in India on Current Account and Remittance in transit.</i>		
<div> <p>P. Satish Chief General Manager Finance and Accounts Department Mumbai, 28 May 2007</p> </div> <div> <p>As per our report attached Sharp & Tannan Chartered Accountants by the hand of</p> </div> <div> <p>Millind P Phadke Partner Membership No. 33013 Mumbai, 28 May 2007</p> </div>		
Dr. Y. S. P. Thorat Chairman	Dr. K. G. Karmakar Managing Director	Usha Thorat Director
		Amitabh Verma Director

Consolidated Balance Sheet Profit & Loss Account, Cash Flow of National Bank for Agriculture and Rural Development, its Subsidiaries 2006-07

Sharp & Tannan
Chartered Accountants

Consolidated Financial Statements 2006-2007
Auditors' Report to the Board of Directors on Consolidated Financial Statements

We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of National Bank for Agriculture and Rural Development (The Bank) and its Subsidiaries as at 31st March, 2007, the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatement. An audit also includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In respect of the financial statements of subsidiaries we did not carry out the audit. The total Assets and total Revenues in respect of these subsidiaries are Rs.54.84 crores and Rs.11.09 crores, respectively. These financial statements have been certified by the management of the respective companies and have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the Subsidiaries is based solely on these certified financial statements. Since the financial statements for the financial year ended 31st March, 2007, which were compiled by the management of these companies (except Karnataka Agri-Development Finance Company Ltd.), were not audited, any adjustments to their balances could have consequential effects on the attached consolidated financial statements.

We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of the Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and on the basis of the separate audited / certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries included in the consolidated financial statements.

We report that on the basis of the information and explanations given to us and on the consideration of the separate audited / certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries, we are of the opinion that the said consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2007;
- b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account of the consolidated results of operations of the Bank for the year ended on that date; and
- c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the consolidated cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Place: Mumbai
Dated: 28 May 2007

Sharp & Tannan
Chartered Accountants
by the hand of

Milind P. Phadke
Partner

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2007

(Rupees)

Particulars	31.03.2007	31.03.2006
LIABILITIES		
Capital	2000,00,00,000	2000,00,00,000
Reserve Fund and Other Reserves	7810,73,39,264	6979,61,77,808
National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	13214,00,00,000	13163,00,00,000
National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1533,00,00,000	1522,00,00,000
Funds Out of Grants received from International Agencies	182,63,92,591	187,12,23,937
Gifts, Grants and Donations	711,81,48,778	145,70,11,073
Other Funds	1112,28,92,249	860,22,46,839
Minority Interest	12,16,67,398	11,62,53,462
Deposits	20236,85,79,506	14051,71,86,003
Bonds and Debentures	28891,89,75,750	20812,95,91,000
Borrowings	3171,69,84,829	6192,19,88,010
Current Liabilities and Provisions	2377,44,95,135	1680,48,31,975
TOTAL LIABILITIES	81254,54,75,500	67626,65,10,107
ASSETS		
Cash and Bank Balances	7043,58,13,205	4323,54,06,272
Investments	2360,03,59,752	3255,55,93,655
Advances	69524,51,62,159	58100,44,48,382
Fixed Assets	238,84,67,008	225,27,25,819
Other Assets	2087,52,89,743	1721,63,99,796
Miscellaneous Expenses not Written off	3,83,633	19,36,183
TOTAL ASSETS	81254,54,75,500	67626,65,10,107
<p>As per our report attached Sharp & Tannan Chartered Accountants by the hand of</p> <p>P. Satish Chief General Manager Finance and Accounts Department Mumbai, 28 May 2007</p> <p>Milind P Phadke Partner Membership No. 33013 Mumbai, 28 May 2007</p>		
Dr. Y. S. P. Thorat Chairman	Dr. K. G. Karmakar Managing Director	Usha Thorat Director
		Amitabh Verma Director

R Krishnamurthy
CGM & Secretary
National Bank for Agriculture
and Rural Development, Mumbai

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2007

(Rupees)

Particulars	During 2006-07	During 2005-06
Income:		
Interest Received on Loans and Advances	4176,86,42,115	3413,99,13,524
Income from Investment operations	540,45,06,642	471,64,08,439
Discount Received	18,57,92,392	130,83,014
Other Receipts	22,44,97,392	57,69,44,541
TOTAL INCOME	4758,34,38,541	3944,63,48,518
Expenditure:		
Interest and Financial Charges	2893,38,93,282	2196,37,69,257
Establishment and other expenses	595,66,67,065	397,22,98,473
Depreciation	22,68,90,093	22,32,42,731
Provision for Bad and Doubtful Debts	83,34,66,232	103,18,91,191
Depreciation in Investment	(31,27,81,991)	32,09,47,991
Amortisation of G-Sec	18,18,15,952	18,18,15,952
Preliminary expenses written off	6,38,150	9,43,590
TOTAL EXPENDITURE	3582,05,88,783	2769,49,09,185
Profit before Income Tax	1176,28,49,758	1175,14,40,333
Provision for Taxation	353,86,28,210	329,84,58,707
Deferred Tax (adjustment)	(38,32,91,142)	(14,21,07,842)
Profit after Tax	860,75,12,690	859,50,89,468
Share of Loss in Subsidiaries attributable to Minority Interest	(57,69,385)	(40,98,310)
Profit available for Appropriation	861,32,82,075	859,91,87,778
Appropriations:		
Profit as above	861,32,82,075	859,91,87,778
Add: Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit and Loss account.	72,93,90,962	161,70,04,899
Total Profit available for Appropriation	934,26,73,037	1021,61,92,677
Transferred to:		
Special Reserve u/s 36 (i) (viii) of the Income Tax Act, 1961	410,00,00,000	450,00,00,000
NRC (LTO) Fund	30,00,00,000	30,00,00,000
NRC (Stabilisation) Fund	10,00,00,000	10,00,00,000
Co-operative Development Fund	2,96,13,765	6,06,79,935
Research and Development Fund	8,88,91,192	6,01,45,321
Foreign Currency Risk Fund	13,62,29,603	13,62,29,603
Reserve Fund	458,79,38,477	505,91,37,818
	934,26,73,037	1021,61,92,677

Additional Notes to Consolidated Accounts

1. Consolidation has been done pursuant to the listing agreement with stock exchange.
2. Financial statements in respect of all the subsidiaries are unaudited (except Karnataka Agri Development Finance Company Ltd.)
3. Details of the subsidiaries

Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd.	India	52.10
Agri Business Finance (AP) Ltd.	India	47.82
Karnataka Agri Development Finance Company Ltd.	India	82.40
NABARD Consultancy Pvt. Ltd.	India	100.00

4. Depreciation on fixed asset is provided on Written Down Value method, at the rates specified in schedule XIV to the Companies Act, 1956, by Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd. and Agri Business Finance (AP) Ltd. Whereas Karnataka Agri Development Finance Company Ltd. has provided depreciation on fixed assets by adopting straight line method at the rates specified in schedule XIV to the Companies Act, 1956, on prorata basis. Thus, the accounting policy followed by subsidiaries for depreciation are different from the accounting policy for depreciation followed by NABARD in the preparation of consolidated financial statements. Thus, out of the total depreciation of Rs.22.69 crores included in the consolidated financial statement, 0.11% of that amount is determined based on depreciation provided by following Written Down Value/ Straight Line method at the rates as specified in schedule XIV to the Companies Act, 1956.

As per our report attached
Sharp & Tannan
Chartered Accountants
by the hand of

P. Satish
Chief General Manager
Finance and Accounts Department
Mumbai, 28 May 2007

Milind P. Phadke
Partner
Membership No. 33013
Mumbai, 28 May 2007

Dr. Y. S. P. Thorat
Chairman

Dr. K. G. Karmakar
Managing Director

Usha Thorat
Director

Amitabh Verma
Director

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2007

(Rupees)

Particulars	During 2006-07	During 2005-06
(a) Cash Flow from Operating activities		
Net profit as per P & L A/C before tax	1176,28,49,758	1175,14,40,335
Depreciation	22,68,90,093	22,32,42,730
Amortisation and Provision for investment	(12,78,48,545)	50,70,62,073
Provision for Non Performing Assets	3,06,72,109	97,93,062
Provision for Standard Assets	86,15,00,000	70,70,00,000
Provision for Sacrifice interest on restructured loan	(5,57,00,000)	31,08,00,000
Interest credited to various funds	64,79,25,885	49,03,78,019
Other expenses	23,79,09,112	20,36,79,756
Income from Investment	(538,24,04,117)	(470,24,51,942)
Profit / Loss on sale of Fixed Asset	(14,28,658)	(25,79,992)
Expenditure from various funds	(337,15,95,820)	(362,73,83,602)
Operating profit before changes in operating assets	482,87,69,817	587,09,80,439
Adjustment for net change in:		
Current Assets	(3092,60,31,247)	1033,80,37,852
Current liabilities	688,66,58,587	60,09,03,439
Proceeds of Bonds	8078,93,84,750	3609,03,90,000
Increase / Decrease in Borrowings	(3020,50,03,181)	(2736,19,44,908)
Increase / Decrease in Deposits	6185,13,93,503	4826,79,84,354
Increase/Decrease in Loans and Advances	(11530,48,39,597)	(9832,74,13,808)
Cash generated from operating activities	(2207,96,67,368)	(2452,10,62,632)
Payment towards Income tax	(290,08,68,036)	(365,96,18,599)
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(2498,05,35,404)	(2818,06,81,231)
(b) Cash Flow from Investing Activities		
Dividend paid	(1,00,00,000)	(30,00,000)
Income from Investment	538,24,04,117	470,24,51,942
Increase / Decrease of Fixed Assets	(36,02,87,748)	(12,40,21,579)
Investments in Government Securities	909,41,81,942	1812,67,73,003
Investments in Shares / Others	(1,00,00,000)	(6,28,61,000)
Preliminary Expenses	0	0
Net Cash used in Investing Activities (B)	1409,62,98,311	2263,93,42,366
(c) Cash Flow from Financing Activities		
Grants / contributions received	1075,85,07,965	502,46,61,138
Net Cash raised from Financing Activities (C)	1075,85,07,965	502,46,61,138
Net Increase in Cash and Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	(12,57,29,128)	(51,66,77,727)
Cash and Cash Equivalent at the beginning of the period	201,14,75,273	252,81,53,000
Cash and Cash Equivalent at the end of the period	188,57,46,145	201,14,75,273
<i>Note: Cash and cash equivalent includes Cash on Hand, Balance with RBI, Balances with other banks in India on Current Account and Remittance in transit.</i>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>P. Satish Chief General Manager Finance and Accounts Department Mumbai, 28 May 2007</p> </div> <div> <p>As per our report attached Sharp & Tannan Chartered Accountants by the hand of</p> <p>Milind P. Phadke Partner Membership No. 33013 Mumbai, 28 May 2007</p> </div> </div>		
Dr. Y. S. P. Thorat Chairman	Dr. K. G. Karmakar Managing Director	Usha Thorat Director
		Amitabh Verma Director

R Krishnamurthy

CGM & Secretary

National Bank for Agriculture
and Rural Development, Mumbai

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND